

મહાવીર-વાણી

— અ.બેચરદાસ દોશી —





श्रमण भगवान् महावीर

महावीर—वाणी

माननीय श्री विनोबा भावे के दो शब्द
और

डॉ. भगवान्दासकी
प्रस्तावनाके साथ

: सम्पादक :
बेचरदास दोशी



भारत जैन महामण्डल, वर्धा
[मार्च १९५३]

सुगणाबाई बड़जाते जैन ग्रन्थमाला—४

(दिल्ली सस्तासाहित्य मंडल)

पहली बार; मूल और अनुवाद के साथ २०००

(वर्धा भारत जैन महामंडल)

दूसरी बार मात्र अनुवाद १९४२ १०००

तीसरी बार मार्च १९५० २०००

चौथी बार मार्च १९५३ २०००

मूल्य : सवा दो रुपये

प्रकाशक:

जमनालाल जैन

प्रबन्ध मंत्री

भारत जैन महामंडल, वर्धा

मुद्रक:

परमेष्ठीदास जैन

जैनेन्द्र प्रेस

ललितपुर (३० प्र०)



स म र्प ण

सौ० श्रीमती अजवाली को—

जिनकी सप्रेम सहचारिता के बिना

साहित्य-क्षेत्र में

मैं कुछ भी नहीं कर सकता—

सादर समर्पण

—बेचरदास

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकाशक की ओर से	५	१३ कषाय-सूत्र ...	८७
संपादकीय	७	१४ काम-सूत्र ...	९३
महावीर और उनकी वाणी	२०	१५ अशरण-सूत्र ...	९९
मैं उन्हींका काम कर रहा हूँ	२२	१६ बाल-सूत्र ...	१०५
महावीर वाणी के तृतीय		१७ पण्डित-सूत्र ...	११५
संस्करण की प्रस्तावना	२३	१८ आत्म-सूत्र ...	१२१
१ मंगल-सूत्र ...	३	१९ लोकतत्त्व-सूत्र ...	१२७
२ धर्म-सूत्र ...	७	२० पूज्य-सूत्र ...	१३५
३ अहिंसा-सूत्र ...	१३	२१ ब्राह्मण-सूत्र ...	१४१
४ सत्य-सूत्र ...	१९	२२ भिक्षु-सूत्र ...	१४७
५ अस्तेनक-सूत्र ...	२५	२३ मोक्षमार्ग-सूत्र ...	१५५
६ ब्रह्मचर्य-सूत्र ...	२९	२४ जतिमदनिवारण-सूत्र	१६५
७ अपरिग्रह-सूत्र ...	३९	२५ क्षमापन-सूत्र ...	१७१
८ अरात्रिभोजन-सूत्र	४३	पारिभाषिक शब्दोंके अर्थ	१७३
९ विनय सूत्र ...	४७	महावीरवाणीके पद्योंकी	
१० चतुरंगीय-सूत्र ...	५५	अक्षरानुक्रमणिका	१७९
११-१ अप्रमाद-सूत्र ...	६१	शुद्धिपत्रक ...	१८८
११-२ अप्रमाद-सूत्र	७१	संस्कृतानुवाद ...	१-५०
१२ प्रमादस्थान-सूत्र ३	७९		

प्रकाशक की ओर से

पहली बार 'महावीर-वाणी' सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली की ओरसे जनवरी सन् १९४२ में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद महामण्डल की ओर से, सुगणाबाई ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ही, इसका केवल हिन्दी अनुवाद-अंश प्रकाशित किया और प्रायः अमूल्य ही वह वितरित हुआ।

अब यह पुस्तक अपने पूर्व और पूर्ण रूप में सम्पादक और प्रकाशक की अनुमतिपूर्वक प्रकाशित की जा रही है— यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है।

इस महंगाई में भी मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि इस 'वाणी' का घर-घर में प्रचार हो।

सुगणाबाई-ग्रन्थमाला श्री. चिरंजीलाल जी बड़जाते की माँ की स्मृति में चल रही है और यह उसका चौथा पुष्प है। इसकी बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम से यथा-शक्ति दूसरे प्रकाशन भी भेंट किए जा सकेंगे।

आशा है, इस पुस्तक का समाजमें यथोचित आदर और उपयोग होगा। दृष्टि-दोष से यदि कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों तो कृपया पाठक सुधार लें।

पन्ना भुवन, भुसावल
वीर जयन्ती, २४७६
ता० ३१ मार्च १९५०

}

फकीरचन्द पन्० जैन
प्रबन्ध मंत्री
भारत जैन महामण्डल

पुनश्च—

तीन वर्ष के बाद 'महावीर-वाणी' का तीसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है ।

इस बार 'महावीर-वाणी' में सम्पादक ने कुछ संशोधन किए हैं । 'विवाद-सूत्र' निकालकर 'जाति-मद-निवारण सूत्र' दिए गए हैं तथा कुछ गाथाएं, निकाल दी गई हैं ।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक का हिन्दी अनुवाद-अंश अलग से छापा गया है । प्राकृत और संस्कृत में रुचि न रखने वालों के लिए यह संस्करण उपयोगी होगा ।

पुस्तक पं० परमेष्ठीदास जी के जैनेन्द्र प्रेस में छपी है । उनका जो सम्बन्ध है वह व्यावसायिकता से ऊपर है । उन्होंने छपाई के सम्बन्ध में पर्याप्त दिलचस्पी ली है और शुद्ध छपाई का ध्यान रखा है । हम छपाई के काम को झाड़ू देने का काम समझते हैं । कितना भी बारीकी से देखा जाय, कुछ न कुछ गलतियाँ-अशुद्धियाँ रह जाती हैं । जो हो; भाई परमेष्ठीदास जी को धन्यवाद देना अपनी ही प्रशंसा करने जैसा होगा ।

वर्धा

१५ मार्च, ५३

}

—जमनालाल जैन



સંપાદકીય

‘મહાવીરવાણી’ની આ જાતનો આ ત્રીજી આવૃત્તિ ગણાય. પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૦ નકલ વિલ્હી-સસ્તાસાહિત્ય મંડલ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી.

પછી મૂળગાથા વિનાનો કેવલ હિન્દી અનુવાદ (૧૦૦૦ નકલ) માઈ શ્રીચિરંજીલાલજી બડજાતેપ પોતાનાં માતૃશ્રીના સ્મરણમાં વર્ધાથી છુપાવેલો.

માઈશ્રી ચિરંજીલાલજી બડજાતે સદ્ગત શ્રી. જમનાલાલજી બજાજના વિશેષ સંપર્કમાં આવેલા જૈન-ધર્મપરાયણ એક સજ્જન માઈ છે. વર્ધામાં રહે છે અને યથાશક્તિ જનસેવામાં તત્પરતા બતાવી રહ્યા છે. મહાવીરવાણી દ્વારા મારો પમની સાથે સ્નેહયુક્ત મધુર ગાઢ પરિચય થઈ ગયો છે. મૂલ અને હિન્દી અનુવાદવાલું આ પ્રસ્તુત પ્રકાશન તેમણે પોતાનાં માતૃશ્રીના સ્મરણમાં પ્રકાશિત કરવા સાહુ ભારે તત્પરતા દાખવી છે. તે અર્થે તેમનું અહીં નામસ્મરણ સવિશેષ ઉચિત છે. આ માઈ ભારત જૈન મહામંડલના સવિશેષ કાર્યકર છે.

ત્યારબાદ મૂલ સાથેની અનુવાદવાળી બીજી આવૃત્તિ (૨૦૦૦ નકલ) ભારત જૈન મહામંડલના કાર્યાધ્યક્ષ ભાઈશ્રી રિષભદાસ રાંકાજી પોતાની ઉક્ત સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરેલી.

આ પ્રસ્તુત આવૃત્તિ (૨૨૦૦ નકલ) પળ પ જ સંસ્થા (ભારત જૈન મહામંડલ) ભાઈશ્રી ચિરંજી-લારાજી બડજાતેની સહાયતા દ્વારા છાપીને પ્રકાશિત કરી રહી છે.

પ્રકાશક સંસ્થાના પ્રાણરૂપ ભાઈ રાંકાજીનો પરિચય મને વીસાપુર જેલમાં ૧૯૩૦ માં થયેલ છે. તેઓ ત્યાં સત્યાગ્રહી તરીકે ઇક કે વે વરસની જેલ લઈને આવેલા. ધર્મચર્ચાને નિમિત્તે મારો અને ઇમનો સવિશેષ પરિચય થઈ ગયો. આ ભાઈ હમણાં હમણાં પોતાનો બધો સમય રાષ્ટ્રસેવા અને ભારત જૈન મહામંડલની સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકી રહ્યા છે. માનનીય શ્રી. વિનોબાજીની અહિંસામૂલક મૂદાન યજ્ઞની સર્વોદયી પ્રવૃત્તિમાં ઇમને વિશેષ રસ છે. આ ભાઈ પળ વર્ધામાં રહે છે અને તેથી જ વર્ધામાં વસેલા સંતકોટિના મહાનુભાવો સદ્ગત શ્રી. કિ. ઘ. મશરુવાલા, નિર્વાણ પામેલા પૂ. વાપુજી વગેરેના સંપર્કમાં રહેનારા છે. વર્ધા નિવાસને કારણે અને સદ્ગત જમનાલાલજીની ગોસેવા-પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ રસ હોવાને લીધે તેઓ માનનીય શ્રી. વિનોબાજીના પળ વિશેષ સંપર્કમાં છે.

[૮]

मारो अने एमनो जेलनिवास दरमियान थयेलो स्नेहसंपर्क महावीरवाणीने निमित्ते आज सुधी एवो ने एवो चालु रहेल छे—विशेष सुमधुर गाढ बनेल छे. आ भाईने महावीरवाणी प्रत्ये निर्व्याज प्रेम छे तेने लीधे ज तेओप माननीय विनोबाजीपासेथी आ पुस्तक विशे विशेष सूचन मागेलुं, एने परिणामे आ पुस्तकमां थोडी वधघट थयेली छे अने पाळळ संस्कृत अनुवादनो उमेरो पण थयेल छे. तथा आ वाणी माटे माननीय विनोबाजीना खास सूचक 'बे शब्दो,' सुद्धां मळी शक्या छे.

आ माटे हुं भाई रांकाजीनो सविशेष आभारी छुं अने राष्ट्रसेवानी असाधारण प्रवृत्तिमां रोकायेला होवा छतां श्री विनोबाजीप 'महावीरवाणी' प्रत्ये जे पोतानो सद्भाव व्यक्त करी बताव्यो छे ते माटे तेमनो. पण सविशेष आभार मानवानुं अहीं जतुं करी शकाय एम नथी.

आ वखते माननीय डॉ. भगवानदासजीप पोते खास नवी प्रस्तावना लखी मोकली छे एटलुं ज नहीं पण तेमणे सर्व धर्म समभावनी दृष्टिप अने पोते खरेखर समन्वयवादी छे ए भावनाने लीधे नवी प्रस्तावनामां तेमणे महावीरवाणी प्रत्ये पोतानो असाधारण लागणो प्रगट करेल छे अने जैन बंधुओनी उदारता बाबत असाधारण बिश्वास बताववा साथे

महावीरवाणीना प्रचार माटे पोतानो अंगत अभिप्राय पण दशविल छे.

आथी खास आशा बंधाय छे के तटस्थ डो. भगवानदासजीनां वचनोनी जैन समाज जरूर कदर करशे. महावीरवाणी प्रत्ये डॉक्टर महाशयनी लागणी बदल अहीं हुं तेमनो पण सविशेष आभार मानुं छुं.

१९४२ थी १९५३ सुधीमां मूळ अने अनुवाद साथेनी महावीरवाणीनी त्रण आवृत्तिओ थई गणाय अने जो तेमां केवळ हिंशी अनुवादवाळी आवृत्तिने मेळवीए तो चार आवृत्तिओ पण थई गणाय. आम एकंदर बार वर्षना गाळामां आ पुस्तकनी सात हजार नकलो प्रजामां पहोंची कहेवाय.

आवा विषम समयमां ज्यां अहिंसा अने सत्यना मार्ग तरफ प्रजानां मन डगमगतां देखाय छे अने ज्यारे लोको—भगवान महावीरना अनुयायी लोको पण त्यांसुधी य मानवा लाग्या छे के व्यवहारमां सत्य अने अहिंसानो मार्ग नहीं ज चाली शके, ए तो मंदिरमां के सभामां बोली बताववानो मार्ग छे. एवे कपरे काले आ पुस्तकनी सात हजार नकलो बार वर्षना य गाळामां गई ते पुस्तकनुं अहोभाग्य ज कहेवाय.

सौथी प्रथम आवृत्ति वखते भाई मानमलजी गोलेच्छा (जोधपुर-खीचनवाळा) ए आर्थिक सहायता

આપી મને પોતાનો ઋણી બનાવેલ તે માટે તે માઈનું નામસ્મરણ અવશ્ય કરી લઉં છું.

પહેલી આવૃત્તિ વચ્ચે હું અમદાવાદમાં, ડૉ. ભગવાનદાસજી બનારસમાં; બાટલું લાંબું અંતર હોઈને તેઓ તત્કાલ પ્રસ્તાવના લખી મોકલે એ કઠણ હતું, પરંતુ મારા ઉપરના નિર્વ્યાજ સ્નેહને લીધે એ કામ માઈ ગુલાબચંદ જૈન (વર્તમાનમાં અધ્યક્ષ શ્રી મહાવોર ભવન પુસ્તકાલય અને વાચનાલય દિલ્લી ૬) સારી રીતે પ્રયાસ કરીને પણ વજાવી શક્યા છે એટલે એ સ્વજનનું પણ નામ સંકીર્તન અહીં જરૂર કરી લઉં છું.

આ ઉપરાંત મારા સ્નેહી કવિ મુનિશ્રી અમર-ચંદજી, પંડિત સુખલાલજી, માઈ દલસુખમાઈ (બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી) તથા માઈ શાંતિલાલજી (બ્યાવર ગુરુકુલ મુદ્રણાલય)નો પણ આ પ્રવૃત્તિમાં મને જે સહકાર મળ્યો છે તે ભૂલી શકાય તેમ નથી.

આ વધા મહાનુભાવોનો પણ હું જરૂર ઋણા છું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ આ પુસ્તકને ઇન્ટરઆર્ટના પ્રાકૃતભાષાના અભ્યાસક્રમમાં યોજેલું છે તે માટે એ સંસ્થાનો તેમ એ સંસ્થાના સંચાલકોનો પણ અહીં આભાર માનવો જરૂરી છે અને ડૉ. ભગવાનદાસજીએ પણ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં એ સંસ્થાને અભિનંદન પાઠવેલ છે.

હેલ્લે માઈ જમનાલાલજી જૈન ('જૈનજગત '

ना सहकारी संपादक) तथा आ पुस्तकना मूळ तथा हिन्दी अनुवादना मुद्रक भाई परमेष्ठीदासजी जैन (मालीक जैनेन्द्र प्रेसः ललितपुरः उत्तरप्रदेश) ए बन्ने महाशयोए आ पुस्तकना मुद्रणमां जे भारे दिलचस्पी बतावेल छे ते माटे तेमनो बन्नेनो हुं सविशेष आभारी छुं.

अहीं आ बावत खास जणाववी जोईए के जो आ बन्ने भाईओए पुस्तकना मुद्रण-संशोधन माटे दिलचस्पी न लीधी होत तो मुद्राराक्षसना प्रभावने लीधे पुस्तकने अंते आपेल शुद्धिपत्रक केटलुं य लांबुं थई गयुं होत.

डॉ. भगवानदासजीए पोतानी प्रस्तावनामां जणावेल छे के प्रस्तुत आवृत्तिना कागळ सारा नथी अने तेनुं समर्थक कारण पण पोते ज समजावेल छे. तेम हुं पण अहीं आ वात नम्रपणे जणाववानी रजा लउं छुं के प्रस्तुत पुस्तकमां मूळ गाथाओनुं अने अनुवादनुं मुद्रण मनपसंद नथी छतां महावीर वाणी प्रत्ये सद्भाव राखनारो वाचक वर्ग आ मुद्रण प्रत्ये पण उदारता दाखवी तेने वधावी लेशे ए आशा अस्थाने नथी.

महावीरवाणीनी कायापलट

आगली बधी आवृत्तिओ करतां आ संस्करणमां जे विशेषता छे ते आ प्रमाणे छे :

[१२]

૧ મહાવીરવાણીની તમામ પ્રાકૃત ગાથાઓનો સંસ્કૃત અનુવાદ તેમના સલંગ આંકડા આપીને પાછળ આપેલ છે. જે વાચકો હિન્દી નથી જાણતા તેમ જ પ્રાકૃત પણ નથી જાણતા તેમને અર્થે શ્રી વિનોબાજીએ સંસ્કૃત અનુવાદ આપવાની સૂચના કરેલી. તે પ્રમાણે આ અનુવાદ આપેલ છે. તેમાં ક્યાંય ક્યાંય સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણ પણ આપેલ છે. સંસ્કૃત અનુવાદની ભાષા આમ તો સરલ સંસ્કૃત રાખી છે છતાં તેમાં હાંદસ પ્રયોગો પણ મૂળ પ્રાકૃત ભાષા સાથે તુલના કરી જોવાની દૃષ્ટિ આપેલા છે.

૨ આગલી આવૃત્તિઓમાં સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિમાં મૂળ ગાથાઓ ૩૪૫ હતી, પછીની આવૃત્તિમાં પંદરમા અક્ષરણસૂત્રમાં છેલ્લે એક ગાથા વધારેલી તેથી તેમાં મૂળ ગાથાઓ ૩૪૬ થઈ. આ આવૃત્તિમાં કુલ ગાથાઓ ૩૧૪ છે પટલે આગલી આવૃત્તિ કરતાં આમાંથી ત્રીશ ગાથાઓ ઘટાડી છે. તેની વીગત આ પ્રમાણે છે :

બીજા ધર્મસૂત્રમાંથી ચાર ગાથાઓ ઘટાડી છે જે ગાથાઓ જૂની આવૃત્તિમાં પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને આઠમી તથા અગ્યારમી, બારમી અને તેરમી હતી અર્થાત્ બીજા ધર્મસૂત્રમાંથી કુલે સાત ગાથાઓ ઓછી થઈ છે.

ત્રીજા અહિંસાસૂત્રમાંથી જૂની આવૃત્તિમાં જે

२४मी અને २५मी ગાથા તથા દસમા ચતુરંગીય-
સૂત્રમાંથી જુના પ્રમાણે ૧૭મી અને ૧૮મી ગાથા હતી
તે ગાથાઓ આમાં ઓછી કરી છે.

પછી અગિયારમા વીજા અપ્રમાદસૂત્રમાંથી જૂની
આવૃત્તિ પ્રમાણે ૧૨૭ થી ૧૩૫ સુધીની પટલે કુલે
નવ ગાથાઓ ઓછી કરી છે.

ચોવીશમું વિવાદસૂત્ર આખું જ કાઢી નાખ્યું છે
પટલે પની કુલે ૧૯ ગાથાઓ ઓછી થઈ.

આમ તો ૭+૨+૨+૧+૧૯ કુલે ઓગણચાઢીશ
ગાથાઓ ઘટી છે પટલે બધી મઢોને ૩૦૭ ગાથાઓ
રહેવી જોઈપ પળ ૨૪મા વિવાદસૂત્રને બદલે જાતિ-
મદ્દનિવારણસૂત્ર નવું જ ગોઠવ્યું છે. તેની ગાથાઓ
કુલે સાત છે પટલે ૩૦૭×૭ મઢી આ આવૃત્તિમાં
કુલે ૩૧૪ ગાથા થઈ, આ જોતાં જૂની આવૃત્તિ કરતાં
આમાંથી કુલે ૩૨ ગાથાઓ ઘટી.

વાચકોની રુચિ પ્રત્યક્ષ જીવન તરફ રહે અને
પ્રત્યક્ષ જીવન જ ભવિષ્યના જીવનનો પાયો છે પ માટે
પ તરફ જ વિશેષ ધ્યાન રૂંચાય તે દષ્ટિને લક્ષ્યમાં
રાખી આ આવૃત્તિમાં થોડીઘણી વધઘટ કરી છે.

વર્તમાનમાં આપણે જોઈપ છીપ કે તમામ ધર્મા-
વલંબીઓનું ધ્યાન પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિ કરતાં પરોક્ષ સૃષ્ટિ
તરફ ઘણું વધારે છે. તેઓ ઈશ્વરને નામે,
મંદિરને નામે, દેવદેવીઓને નામે, ધર્મનાં મનાતાં કર્મ-

કાંઠોને નામે ઘણો ઘણો ભોગ આપે છે, ઘણો ઘણો ત્યાગ કરે છે અને એવું બીજું ઘણું ઘણું કષ્ટ સહન કરે છે તેમ છતાં આપણું વર્તમાન જીવન સુખમય, સંતોષમય, શાંતિમય નથી બની શકતું. કુટુંબમાં એવો જ વિશ્વવાદ ચાલ્યા કરે છે અને સમાજમાં તથા રાષ્ટ્રમાં પણ એવા જ હાનિકારક વિશ્વવાદો થયા કરે છે, નવા નવા વધ્યા કરે છે. આપણું લક્ષ્ય વર્તમાન જીવનનાં શાંતિ સુખ સંતોષ અને વાત્સલ્ય તરફ જ હોય તો આવું કેમ બની શકે ?

આ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય રાખવા માટે જ આ સંસ્કરણમાં થોડી કાંટછાંટ કરી છે. માર્ક રાંકાજીની સૂચના આ જ હકીકતને લક્ષ્યમાં રાખીને કાંટછાંટ માટે થપલી હતી પટલે પણ આ કાંટછાંટ કરવાનું ગમી ગયું છે.

આ મહાવીરવાણી આપણા પ્રત્યક્ષ જીવનમાં સુખ શાંતિ સંતોષ અને વાત્સલ્ય પ્રેરનારી થાય પ એક જ આકાંક્ષા છે.

મહાવીરવાણીના જે વાચકો અજ્ઞાન છે તેમને સાહ મહાવીરવાણીમાં આવેલું લોકતત્ત્વ સૂત્ર ૧૨ મું કાંઈક વધારે પડતું પારિભાષિક લાગે સ્વહં છતાં એ તે દ્વારા તે વાચકોને જન પ્રવચન વિશે થોડી ઘણી માહિતી જરૂર મળશે એમ માનીને તેને બદલ્યું નથી.

જૈન પ્રવચનમાં જન્મજાતિવાદને મૂલ્યથી જ સ્થાન

નથી, સ્વયં કહેવામાં આવે તો ભગવાન મહાવીરના ધર્મચક્ર પ્રવર્તનના જે બીજા બીજા હેતુઓ હતા તેમાં જન્મજાતિવાદને મીટાવી દેવાનો પણ એક ખાસ હેતુ હતો જ. એ વાતને લક્ષ્યમાં લાવવા સ્વાતંત્ર્ય ૨૪ મું જાતિમદનિવારણ સૂત્ર ખાસ સાંકળવામાં આવ્યું છે. તે બધી ગાથાઓ અને અને મળતી બીજી બીજી અનેક ગાથાઓ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વગેરે અનેક સૂત્રોમાં ભરી પડી છે પરંતુ તે બધીને અહીં ન આપતાં માત્ર આચારાંગ અને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાંથી થોડાં વચનો વાનગી રૂપે અહીં ગોઠવેલાં છે. તે ઉપરથી વાચકો જોઈ શકશે કે જૈન પ્રવચનમાં મૂળથી જ જન્મ-જાતિવાદને જરાય સ્થાન નથી પડતું જ નહીં પણ એનો વિશેષ વિરોધ ભગવાન મહાવીરે જ પોતે કરેલો છે.

દુઃખ અને સ્વેદની વાત તો એ છે કે વર્તમાનમાં જેઓ જૈન ધર્મના આચાર્ય કહેવાય છે તેઓ પણ હજી સુધી અસ્પૃશ્યતાને જાળવી રહ્યા છે અને કેમ જાણે તે તેમનો સદાચાર ન હોય તેમ પાળી રહ્યા છે. સ્ત્રી રીતે એ રીતનું વર્તન જૈન પ્રવચનથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે, અહિંસાની દૃષ્ટિએ પણ તદ્દન અનુચિત છે અને ભગવાન મહાવીરના વચનોથી તો એ સદંતર વેગળું છે. એ વાત વર્તમાન જૈન ઉપદેશકોના અને તેમના અનુયાયીઓના ખાસ ચ્યાલમાં આવે માટે જ આ જાતિમદનિવારણ સૂત્રને અહીં સાંકળેલું છે.

[૧૬]

प्रस्तुत पुस्तकमां श्रमण भगवान महावीरनुं एक सुंदर चित्र जरूरी लागतुं हतुं तथा तेमनो मानवतानी दृष्टिप प्रामाणिक परिचय आपवानुं पण तेदलुं ज जरूरी जणातुं हतुं छतां य आमांथी पेलुं चित्र मूकवानुं तो बनी शक्युं छे अने तेमनो परिचय आपवानुं हाल तुरत नथी बनी शक्युं ते माटे वाचको जरूर क्षमा आपशे पण निकटना भविष्यमां महावीरवाणीनो गुजराती अनुवाद मारे वाचको समक्ष रजु करवानो मनोरथ छे ते वखते आ परिचय आपवा जरूर प्रयास करवानुं धारी राख्युं छे.

उपरांत जे जे वचनो महावीरवाणीमां भावेलां छे तेवां ज वचनो बुद्धवाणीमां अने वैदिकवाणीमां-उपनिषदो जने महाभारत वगैरेमां-सुद्धां मळी आवे छे ते अंगेनुं तुलनात्मक लखाण पण आ वाणीनी प्रस्तावनामां जरूरी छे अने डॉ. भगवानदासजीप पोतानी प्रस्तावनामां आ वचनो विशे जे एक बीजी सूचना करेली छे ते विशे पण खास लखवा जेवुं छे. तेमनी सूचना प इती के आ वचनो भगवान महावीरे जे जे प्रसंगे कहेलां होय ते तमाम प्रसंगेवाळी टूंक्री नोंध ते ते वचनो साथे आपी देवी जोईप जेथी आ वचनोने वांबतां ज तेमनो आशय हृदयमां जडाई जाय अते आ वचनो वधारे असरकारक बने.

આ બન્ને મુદ્દાઓ વિશે પણ હવે પછી લખવાની કલ્પના કરી હાલ તો મૂકી છાંડી છે.

આ ઉપરાંત કેટલાંક વચનોનો આશય સમજાવવા સારુ થોડું વિવેચન કરવું જરૂરી છે. જેમકે વાંચલા તરીકે-ધર્મસૂત્રમાં આવેલી ચોથી ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે:

“જરા અને મરણના વેગથી ધોધબંધ વહેતા પ્રવાહમાં તળાતા પ્રાણીઓને માટે ધર્મ જ બેટરૂપ છે અને ધર્મ જ શરણરૂપ છે.”

આનો અર્થ કોઈ એમ ન સમજી વેસે કે ધર્મ કોઈ પણ દેહધારીનાં જરા અને મરણને અટકાવી શકે છે. જેમ જન્મવું આપણે વશ નથી તેમ જરા અને મરણ પણ તમામને માટે સ્વાભાવિક છે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, સંતો, તીર્થંકરો અને ચક્રવર્તીઓ સ્વરા અર્થમાં ધર્માવલંબી થઈ ગયા પણ તેઓ ઘરડા થતાં અટક્યા નહીં તેમ મરતાં પણ અટક્યા નહીં. માત્ર તેમનું ધર્માવલંબન તેઓને શાંતિથી, સંતોષથી અને અવિષમભાવે જીવન જીવવામાં સ્વપ્ન લાગતું અને ધર્માવલંબનનો સ્વરો અર્થ પણ એ જ છે.

જે વિકાર સ્વાભાવિક છે તેને કોઈ અટકાવી શકે જ નહીં માત્ર તે વિકારો થતાં આપણને કદાચ અજ્ઞાનતાથી અશાંતિ અસંતોષ ઉપજે તો ધર્માવલંબનથી તેમનું સમાધાન થાય છે. આ અર્થ ‘ધર્મ જ શરણરૂપ

હે' તે વાક્યને ચરોચર છે. આ જ રીતે આ ઘણનો વિશે આવાં ટિપ્પણો કરવાની જરૂર છે.

સંપાદકીય કથનમાં હવે આથી વધારે લખવું આવશ્યક નથી.

આ મહાવીરવાણી તમામ પ્રાણીને, તમામ ભૂતોને, તમામ જીવોને અને તમામ સત્ત્વોને સુખકર, સંતોષકર અને સમાધાનકર નીવડો પરી ભાવના ભાવી વિરમું છું.

મૂલ અને અનુવાદ પૂરો થયા પછી પાછલ આપેલો વધો ભાગ અમદાવાદમાં શારદા મુદ્રણાલયે છાપેલ છે. તેના માલીક અને વ્યવસ્થાપકે આ છાપકામ ઘણું જ સુંદર થાય તેમ પૂરતી કાલ્જી રાખી છે તે, એ કામ જ કહી આપે છે: પટલું જ નહીં ચિત્રની પસંદગી પણ શ્રીબાલાભાઈએ પોતે ઘણી કાલ્જીથી કરી છે. આ વધા મારા અંગત સ્વજનો છે છતાં ય આ મુદ્રણાલયના કામને વિશેષ પ્રસિદ્ધિ મળે એ દષ્ટિએ જ અહીં આ પ્રેસના નામનું ખાસ સંકીર્તન કરું છું.

તા. ૯-૭-૫૩

૧૨/૧ ભારતી નિવાસ સોસાયટી
એલિસબ્રિજ : અમદાવાદ-૬

બેચરદાસ દોશી

महावीर और उनकी वाणी

बुद्ध और महावीर भारतीय आकाश के दो उज्ज्वल नक्षत्र हैं. गुरु शुक्र के समान तेजस्वी और मंगल-दर्शन. बुद्ध का प्रकाश दुनिया में व्यापक फैल गया. महावीर का प्रकाश भारत के हृदय की गहराई में पैठ गया. बुद्धने मध्यम-मार्ग सिखाया. महावीर ने मध्यस्थ-दृष्टि दी. दोनों दयालु और अहिंसा-धर्मी थे. बुद्ध बोध-प्रधान थे, महावीर वीर्यवान तपस्वी थे ।

बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवीर थे. लेखन-वृत्ति उनमें नहीं थी. ये निर्ग्रन्थ थे. कोई शास्त्र रचना उन्होंने नहीं की. पर वे जो बोलते जाते थे, उसीमें से शास्त्र बनते थे. उनका बोलना सहज होता था. उनकी बिखरी हुई वाणी का संग्रह भी पीछे से लोगों को एकत्र करना पड़ा.

बुद्ध वाणी का एक छोटासा सारभूत संग्रह, धम्मपद के नाम से दो हजार साल पहिले ही हो चुका था, जो बौद्ध-समाज में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में भगवद्गीता के समान प्रचलित हो गया है. महावीर की वाणी अभी तक जैनो के आगमादि ग्रंथों में, बिखरी पड़ी थी. उसमें से चुन करके, यह एक छोटासा संग्रह, आत्मार्थियों के उपयोग के लिये श्री रिषभदासजी की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया है. वैसे तो इस पुस्तक की यह तीसरी आवृत्ति है. पर यह

पुनर्मुद्रण नहीं है, बल्कि परिवर्धित आवृत्ति है जिसमें अधिक व्यापक दृष्टिसे संकलन हुआ है. मेरे सुझाव पर इसमें मूल वचनों के संस्कृत रूपांतर भी दिये हैं. उससे महावीरवाणी समझने में सुलभता होगी ।

धम्मपद काल-मान्य हो चुका है. महावीर-वाणी भी हो सकती है, अगर जैन-समाज एक विद्वत्-परिषद के जरिये पूरी छानबीन के साथ, वचनों का और उनके क्रम का निश्चय करके, एक प्रमाणभूत संग्रह लोगों के सामने रखे. मेरा जैनसमाज को यह एक विशेष सुझाव है. अगर इस सूचना पर अमल किया गया तो, जैन विचार के प्रचार के लिये, जो पचासों किताबें लिखी जाती हैं, उनसे अधिक उपयोग इसका होगा.

ऐसा अपौरुषेय संग्रह जब होगा तब होगा, पर तब तक पौरुषेय-संग्रह, व्यक्तिगत प्रयत्न से, जो होंगे वे भी उपयोगी होंगे । “साधक सहचरी” नाम से ऐसा ही एक संग्रह श्री संतबालजी का किया हुआ, प्रकाशित हुआ है. यह दूसरा प्रयत्न है. मैं चाहता हूं कि केवल जैन समाज ही नहीं, पर चित्त-शुद्धि की चाह रखनेवाले, जो जैन संप्रदाय के नहीं हैं वे भी, इसका चिंतन मनन करेंगे.

पड़ाव छपरी (बिहार) ३०-३-५३

—चिनोबा

[२१]

मैं उन्हींका काम कर रहा हूँ

“महावीर वाणी मुझे बहुत ही प्रिय लगी है. संस्कृत छाया दे रहे हो उससे उसे समझने में सहूलियत होगी. आज तो मैं बुद्ध और महावीर की छत्र छाया में उन्हींके प्यारे बिहार में घूम रहा हूँ और मानता हूँ कि उन्हीं का काम मैं कर रहा हूँ. इन दिनों 'धम्मपद'की पुस्तक मेरे साथ रहती है. जब महावीर वाणी का आपका नया संस्करण निकलेगा तब वह भी रखूंगा. पढ़ने के लिए मुझे समय मिले या न मिले, कोई चिंता नहीं. ऐसी चीजें नजदीक रहीं तो उनकी संगति से भी बहुत मिल जाता है. वैसे पहले महावीर—वाणी मैं देख चुका हूँ. फिर भी प्रिय वस्तु का पुनर्दर्शन प्रियतर होगा. आजकल सैकड़ों पुस्तकों की हर भाषामें भरमार हो रहीं है. अगर मेरी चले तो बहुत से लेखकों को मैं खेती के काम में लगाना चाहूंगा और गीता, धम्मपद, महावीर—वाणी जैसी चंद किताबों से समाजको उज्जीवन पहुँचाऊँगा।*

पड़ाव : अंबा (गया)

—विनोबा

११—११—५२

* ऊपरकी पंक्तियाँ रांकाजीको लिखे गए एक पत्रसे ली गई है जो उन्होंने 'महावीर—वाणी' पुस्तकके विषयमें लिखी थीं।

[२२]



महावीर वाणी के तृतीयसंस्करण की प्रस्तावना

अध्यापक श्री वेचरदास जीवराज दोशीजी का पत्र, ति. १५-६-१९५३ ई. का मुझे ति. १८-६-'५३ को मिला, और नये संस्करणके छपे फ़र्मे भी मिले । द्वितीय को अपेक्षा इसमे जो परिवर्तन किया गया है, अर्थात् कुछ अंश छोड़ दिया है, कुछ बढ़ाया है, उसकी चर्चा, श्रीजमनालालजी जैनने अपने "पुनश्च" शीर्षकके निवेदनमे, किया है; तथा श्रीवेचरदासजीने उक्त पत्रमे अधिक विस्तार से किया है; फलतः, प्रथम और द्वितीयमे ३४५ तथा ३४६ गाथा थीं, इसमे ३१४ हैं । 'जातिमदनिवारणसूत्र' जो बढ़ाया है वह बहुत ही अच्छा, शिक्षाप्रद, समयोचित, आवश्यक, समाजशोधक सूक्त है । यदि अन्य प्रमुख जैनाचार्योंकी उक्तियाँ, इसकी टीकाके रूपमे इसके 'परिशिष्ट' के रूपमे, नहीं तो चौथे संस्करणमे, रख दी जायँ तो और अच्छा हो; यथा रविषेण (५ वीं शती)के 'पद्मचरित'मे,

“ मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोद्भवोद्भवा,
वृत्तिमेवाद् द्वि तद्मेवात् चातुर्वर्ण्यमिहाऽऽप्नुते ।
ब्राह्मणाः व्रतसंस्कारात्, क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्,
वणिजोऽर्थार्जनात् न्यायात्, शूद्राः न्यग्वृत्तिसंश्रयात् ।”

तृतीय संस्करण का एक और श्लाघ्य विशेष गुण यह है कि प्रत्येक श्लोकके नीचे, उस प्राचीन मूल ग्रंथका संकेत कर दिया है जिसमे वह मिलता है, यथा ‘उत्तराध्यनसूत्र’ ‘दश-वैकालिकसूत्र’, आदि । एक और कार्य, आगामी संस्करणों मे कर्तव्य है; प्रसिद्ध है कि बुद्धदेवने ‘धम्मपद’की प्रत्येक गाथा विशेष विशेष अवसर पर कही; उन अवसरों के वर्णन सहित ‘धम्मपद’के कोई कोई संस्करण छपे हैं; प्रायः महावीरस्वामीने भी ऐसे अवसरों पर गाथा कही होगी; उनको भी छापना चाहिये। यह रीति इस देश की बहुत पुरानी है; अति प्राचीन इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि मे, अध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, ब्रह्मविद्याके भी, गूढ सिद्धांत, आख्यानकों कथानकोंकी लपेट मे कहे गये हैं, जो उदाहरणों का काम देते हैं; इस प्रकार से, रोचकता के कारण, सिद्धांत ठीक ठीक समझ मे भी आ जाते हैं और स्मृति मे गड़ जाते हैं, कभी भूलते नहीं।

पुस्तकके अंतमें सब गाथाओंका संस्कृत रूपांतर छाप

दिया है, यह भी बहुत उत्तम काम किया है। कालके प्रभावसे, महावीरके समयकी प्राकृत भाषा (यथा उनके समकालीन बुद्धकी पाली) लुप्त हो गई है, किंतु संस्कृत उनसे सहस्रों वर्ष पहिले से आज तक भारत मे पढ़ी, समझी, और विद्वन्मंडली मे कुछ कुछ बोली भी जाती है; अतः इस संस्करणका, उक्त संस्कृत अनुवादके हेतु, उस मंडलीमें अधिक प्रचार और आदर होगा, विशेष कर भारतके उन प्रांतों मे जहां हिन्दी अभी तक समझी नहीं जाती है, यद्यपि भारतके नये संविधान मे उसे 'राष्ट्रभाषा' घोषित कर दिया है। स्मरणीय है कि महावीर निर्वाणके कुछ शतियों बाद, जिनानुयायी धुरंधर प्रकांड विद्वानोने प्राकृतभाषाका प्रयोग छोड़ दिया; क्योंकि प्राकृत भाषाएँ नित्य बदलती रहती हैं, यथा कालिदासादिके नाटकोंके समय की आठ प्राकृतों मे से एक का भी व्यवहार आज नहीं है; इन विद्वानोने अपने रत्ने ग्रंथों को चिरजीविता देने के लिये संस्कृतमें लिखा; यथा, उमास्वामी (द्वितीयशताब्दी ई०)ने नितांत प्रामाणिक 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र', जिसे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों ही मानते हैं; अकलंकने 'राजवार्तिक' नामकी टीका 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' पर; 'कलिकालसर्वज्ञ' राजगुरु हेमचंद्राचार्य (१२वीं शती)ने 'प्रमाणमोमांसा', 'हैम-बृहदभिधान' नामक संस्कृत शब्दों का कोष, तथा अन्य कई विशालकाय ग्रंथ; हरिभद्र

(९वीं)ने षड्दर्शनसमुच्चय'; समंतभद्र (६वीं)ने 'आप्तमीमांसा'; इति प्रभृति ।

मुझे यह त्रुटि जान पड़ती है कि इस नये संस्करण का कागज वैसा अच्छा नहीं है जैसा प्रथम संस्करण का था । क्या किया जाय ? समयके फेरसे सभी वस्तुओं के मूल्य में अतिवृद्धि, एक ओर; पुस्तक इतनी महर्घ न हो जाय कि अल्पवित्त सज्जन क्रय न कर सकें, दूसरी ओर; इन दो कठिनाइयों के बीच ऐसा करना पड़ा ।

दूसरा खेद मुझे यह है की इस श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रचार बहुत कम हुआ । सन् १९५१की जनगणना में, जैनो की संख्या, स्थूल अंकों में, समग्र भारत में १३००००० (तेरहलाख)थी; सबसे अधिक बंबई राज्य में, ५७२०००; फिर राजस्थान में, ३२८०००; सौराष्ट्र में, १२४०००; मध्यभारत में, १०००००; उत्तरप्रदेशमें, ९८००० । तेरहलाख की संख्या प्रायः दो लाख परिवारोंमें बँटी हुई समझी जा सकती है । जैन परिवार प्रायः सभी साक्षर होते हैं । यदि दो कुलोंके बीच में भी एक प्रति रहै तो एक लक्ष प्रतियाँ चाहियें । सो, पहिले संस्करण की दो सहस्र प्रतियाँ छपीं; स्यात् दूसरेकी भी

इतनी ही; इस तीसरे की भी प्रायः इतनी छपैँमी । यह संख्या-
कथमपि पर्याप्त नहीं है ।

छः वर्षों बाद, मत् अप्रैल मास मे, विशेष कार्यवश, मुझे कलकत्ता जाना पड़ा । वहाँ, कुछ जैन सज्जनोंके निर्बोधसे २७ अप्रैलको, सुन्दर और विशाल 'जैन उपाश्रयभवन'मे महावीरजयंतीके समारोहका प्रारंभ, एक प्रवचनसे करनेके लिये गया । प्रायः बारह सौ सज्जन और देवियाँ एकत्र थीं । मैने पूछा कि 'महावीरवाणी' आप लोगोंने देखा है ? किसीने भी 'हाँ' नहीं कहा । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । कलकत्तामें प्रायः पाँच सहस्र जैन परिवार, जिन मे पच्चीस सहस्र प्राणी होंगे, निवास करते हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया । परमेश्वरकी दयासे और अपनी व्यापारकुशलता और उत्साहसे, जैन सज्जन जैसे साक्षर हैं वैसे बहुवित्त धनी और कोई कोई कोटिपति भी हैं; यही दशा बंबई, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि प्रान्तोंकी है; यदि उनके पास कोई प्रामाणिक सुख्यात सज्जन छपे परिपत्र लेकर जायँ तो निश्चयेन लाखों रुपये इस उत्तम धर्मकार्यके लिये सहज मे मिल जायँ, और एक लाख प्रतियोंका, नहीं तो कमसे कम पचास सहस्र का, उत्तम संस्करण, अच्छे पुष्ट कागज़ पर और अच्छी पुष्ट कपड़े की जिल्द का, छप जाय, जैसा प्रथम

संस्करण का था जो सस्ता—साहित्य—मंडल, नई दिल्ली से निकला था । जैन समाजने अर्बों रुपये सुंदरसे सुन्दर मंदिरों और मूर्तियाँ पर व्यय किया है; महावीर जिनके उपदेश आदेशके प्रचारके लिये लाखों रुपये व्यय करना उसके लिये क्या कठिन है ?

श्रीवेचरदासजीके, ति. २९-६-१९५२के पोस्टकार्डसे विदित हुआ कि गुजरात युनिवर्सिटीने, प्राकृतभाषा के पाठ्यक्रममें, 'इन्टर' वर्गके लिये, महावीरवाणी को रख दिया है; यह बहुत सभाजनोय अभिनंदनीय काम किया है; इससे भी ग्रंथके प्रचार मे बहुत सहायता मिलैगी ।

सौर १९ भाषाढ, २०१० वि० } (डाक्टर) भगवान्दास
 (जूलाई, ३ १९५३ ई०) } "शांतिसदन", सिम्रा, बनारस-२

महावीर-वाणी

: १ :

मंगल-सुत्तं

नमोक्कारो

नमो अरिहंताणं ।

नमो सिद्धाणं ।

नमो आयरियाणं ।

नमो उवज्झायाणं ।

नमो लोए सव्वसाहूणं ।

एसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।
मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

[पंचप्रति० सू० १]

मंगलं

अरिहंता मंगलं ।

सिद्धा मंगलं ।

साहू मंगलं ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलं ।

[पंचप्रति० संधारा० सू०]

: १ :

मङ्गल-सूत्र

नमस्कार

अर्हन्तों को नमस्कार;

सिद्धों को नमस्कार;

आचार्यों को नमस्कार;

उपाध्यायों को नमस्कार;

लोक (संसार) में सब साधुओं को नमस्कार।

—यह पञ्च नमस्कार समस्त पापों का नाश करनेवाला है,
सब मङ्गलों में प्रथम (मुख्य) मङ्गल है।

मङ्गल

अर्हन्त मङ्गल हैं;

सिद्ध मङ्गल हैं;

साधु मङ्गल हैं;

केवली-प्ररूपित अर्थात् सर्वज्ञ-कथित धर्म मङ्गल है।

महावीर-वाणी

लोगुत्तमा

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

[पंचप्रति० संथारा० सू०]

सरणं

अरिहंते सरणं पवज्जामि ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।

साहू सरणं पवज्जामि ।

केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

[पंचप्रति० संथारा० सू०]

लोकोत्तम

अर्हन्त लोकोत्तम (संसार में श्रेष्ठ) हैं;

सिद्ध लोकोत्तम हैं;

साधु लोकोत्तम हैं;

केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम है ।

शरण

अर्हन्त की शरण स्वीकार करता हूँ;

सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ;

साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ;

केवली-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करना हूँ ।

: २ :

धम्म-सुत्तं

(१)

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तवो ।
देवा वि तं नमंसन्ति जस्स धम्मो सया मणो ॥ १ ॥

[दश० अ० १ गा० १]

(२)

अहिंस सच्चं च अतेणं च,
तत्तो य वम्भं अपरिगहं च ।
पडिवज्जिया पंच महव्वयाणि,
चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विदू ॥ २ ॥

[उत्तरा० अ० २१ गा० १२]

(३)

पाणे य नाइवाएज्जा, अदिन्नं पि य नायए ।
साइयं न मुसं बूया, एस धम्मो वुसीमओ ॥ ३ ॥

[सू० श्रु० १ अ० ८ गा० १६]

(४)

जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं ।
धम्मो दीवो पइट्ठा य्, गई सरणमुत्तमं ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० २३ गा० ६८]

: २ :

धर्म-सूत्र

(१)

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है ।

(कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप ।

जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

(२)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पांच महाव्रतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करे ।

(३)

छोटे-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न करना; अदत्त (बिना दी हुई वस्तु) न लेना, विश्वासघाती असत्य न बोलना—यह आत्मनिग्रही सत्पुरुषों का धर्म है ।

(४)

जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के लिये धर्म ही एक-मात्र द्वीप, प्रतिष्ठा, गति, और उत्तम शरण है ।

(५)

जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।
विसमं मगमोइएणो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥ ५ ॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० १४]

(६)

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।
वाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई ॥ ६ ॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० १५]

(७)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।
अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ ७ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० २४]

(८)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।
धम्मं च कुणमाणस्स, सकला जन्ति राइओ ॥ ८ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० २५]

(९)

जरा जाव न पीडेइ,, वाही जाव न वड्ढइ ।
जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समायरे ॥ ९ ॥

[दश० अ० ८ गा० ३६]

(५)

जिस प्रकार मूर्ख गाड़ीवान जान-बूझकर साफ-सुथरे राज-मार्ग को छोड़ विषम (ऊँचे-नीचे, ऊबड़-खाबड़) मार्ग पर जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर शोक करता है—

(६)

उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य धर्म को छोड़ अधर्म को ग्रहण कर, अन्त में मृत्यु के मुँह में पढ़कर जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है ।

(७)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं ।

(८)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

(९)

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं, तबतक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये—बाद में कुछ नहीं होने का ।

(१०)

मरिहिसि रायं ! जया तथा वा,
 मणोरमे कामगुणे विहाय ।
 इक्को हु धम्मो नरदेव ! ताणं,
 न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥ १० ॥
 [उत्तरा० अ० १४ गा० ४०]

(१०)

हे राजन् ! जब आप इन मनोहर काम-भोगों को छोड़कर
 स्व-लोक के यात्री बनेंगे, तब एक-मात्र धर्म ही आपकी
 रक्षा करेगा । हे नरदेव ! धर्म को छोड़कर जगत् में दूसरा कोई
 भी रक्षा करने वाला नहीं है ।

: ३ :

अहिंसा-सुत्तं

(११)

तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं ।
अहिंसा निउणा दिट्ठा, सब्बभूएसु संजमो ॥ १ ॥

[दश० अ० ६ गा० ६]

(१२)

जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुवा थावरा ।
ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥ २ ॥

[दश अ० ६ गा० १०]

(१३)

सयं तिवायए पाणे, अदुवऽन्नेहिं घायए ।
हएण्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्ढइ अप्पणो ॥ ३ ॥

[सूत्रः श्रु० १ अ० १ उ० १ गा० ३]

(१४)

जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।
नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १८]

: ३ :

अहिंसा—सूत्र

(११)

भगवान महावीर ने अठारह धर्म-स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का बतलाया है ।

सब जीवों के साथ संयम से व्यवहार रखना अहिंसा है; वह सब सुखों को देनेवाली मानी गई है ।

(१२)

संसार में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सब को, जान और अनजान में न स्वयं मारना चाहिए और न दूसरों से मरवाना चाहिए ।

(१३)

जो मनुष्य प्राणियों की स्वयं हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालों का अनुमोदन करता है, वह संसार में अपने लिये वैर को बढ़ाता है ।

(१४)

संसार में रहनेवाले त्रस और स्थावर जीवों पर, मन से, वचन से और शरीर से,—किसी भी तरह दंड का प्रयोग न करना चाहिए ।

(१५)

सव्वे जीवा वि इच्छंति, जीविडं न मरिज्जिडं ।
तम्हा पाणिबहं चोरं, निगंथा वज्जयंति एं ॥ ५ ॥

[दश० अ० ६ गा० ११]

(१६)

अज्भत्थं सव्वओ सव्वं दिस्स, पाणे पियायए ।
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ ६ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ७]

(१७)

सव्वाहिं अणुजुत्तीहिं, मईमं पडिलेहिया ।
सव्वे अक्कन्तदुक्खा य, अओ सव्वे न हिंसया ॥ ७ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० ६]

(१८)

एवं खु नाणिणो सारं, जं न हिंसइ किंचण ।
अहिंसासमयं चैव एयावन्तं वियाणिया ॥ ८ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ११ गा० १०]

(१५)

हम भी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता ।
इसीलिए निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) बोर प्राणि-बन्ध का सर्वथा परित्याग
करते हैं ।

(१६)

भय और वैर से निवृत्त साधकको, जीवन के प्रति मोह-ममता
रखनेवाले सब प्राणियों को सर्वत्र अपनी ही आत्मा के समान
जानकर उनकी कभी भी हिंसा न करनी चाहिए ।

(१७)

बुद्धिमान् मनुष्य ऊर्ध्वों जीव-निकायों का सब प्रकार की
शक्तियों से सम्यक्ज्ञान प्राप्त करे और 'सब जीव दुःख से
बधराते हैं'—ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचाये ।

(१८)

ज्ञानी होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की
हिंसा न करे । —इतना ही अहिंसा के सिद्धान्त का ज्ञान
बशेष है । यही अहिंसाका विज्ञान है ।

(१६)

संबुद्धमाणे उ नरे मईमं,
 पावाउ अप्पाणं निवट्टएज्जा ।
 हिंसप्पसूयाइं दुहाइं मत्ता,
 वेरानुवन्धीणि महब्भयाणि ॥ ६ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १० गा० २१]

(२०)

समया सव्वभूएसु, सत्तु-मित्तेसु वा जगे ।
 पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्करं ॥ १० ॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २५]

(१६)

सम्यक् बोध को जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान् मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-वर्द्धक एवं महाभयंकर दुःखों को जानकर अपने को पाप-कर्म से बचाये ।

(२०)

संसार में प्रत्येक प्राणी के प्रति—फिर वह शत्रु हो या मित्र - समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना—वास्तव में बहुत दुष्कर है ।

: ४ :

सच्च-सुत्तं

(२१)

निच्चकालऽप्पमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं ।
भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाऽऽउत्तेण दुक्करं ॥१॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २६]

(२२)

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।
हिंसगं न मुसं वूया, नो वि अन्नं वयावए ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १२]

(२३)

मुसावाओ य लोगम्मि, सव्वसाहूहिं गरहिओ ।
अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० १३]

(२४)

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।
अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥४॥

[उत्तरा० अ० १ गा० २५]

सत्य—सूत्र

(२१)

सदा अ-प्रमादी और सावधान रहकर, असत्य को त्याग कर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना चाहिए । इस तरह सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है ।

(२२)

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा मय से—किसी भी प्रसंग पर दूसरों को पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरों से बुकवाना चाहिए ।

(२३)

मृषावाद (असत्य) संसार में सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित किया गया है और सभी प्राणियों को अविश्वसनीय है; इसलिए मृषावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिए ।

(२४)

अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरों के लिए, दोनों में से किसी के भी लिए, पूछने पर पाप-युक्त, निरर्थक एवं मर्म-भेदक वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(२५)

तहेव सावज्जऽणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा य परोवघायणी ।
 से कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिरं वण्जा ॥५॥

[दश० अ० ७ गा० १४]

(२६)

दिट्ठं मिथं असंदिट्ठं, पडिपुण्णं वियंजियं ।
 अयंपिरग्गुट्ठिवग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥६॥

[दश० अ० ८ गा० ४६]

(२७)

भासाए दोसे य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुट्ठे परिवज्जए सया ।
 छसु संजए सामणिए सया जए,
 वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥७॥

[दश० अ० ७ गा० १६]

(२८)

सयं समेच्च अदुघा वि सोच्चा,
 भासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं ।
 जे गरहिया सणियाणप्पओगा,
 न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥८॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १३ गा० १६]

(२५)

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरों को दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(२६)

आत्मार्थी साधक को दृष्ट (सत्य), परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट-अनुभूत, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्धिग्न न करनेवाली वाणी बोलना चाहिए ।

(२७)

भाषा के गुण तथा दोषों को भली-भाँति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देनेवाला, षट्काय जीवों पर संयत रहनेवाला, तथा साधुत्व-पावन में सदा तत्पर बुद्धिमान साधक केवल हितकारी मधुर भाषा बोले ।

(२८)

श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करनेवाले धर्मका उपदेश करे । जो आचरण निन्द्य हों, निदानवाले हों, उनका कभी सेवन न करे ।

(२६)

सवक्कसुद्धिं समुपेहिया मुणी,
 गिरं च दुट्ठं परिवज्जए सया ।
 मियं अदुट्ठं अणुवीइ भासए,
 सयाण मज्जे लहई पसंसणं ॥६॥

[दश० अ० ७ गा० ११]

(३०)

तहेव काणं काणे त्ति, पंडगं पंडगे त्ति वा ।
 वाहियं वा वि रोगि त्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए ॥१०॥
 [दश० अ० ७ गा० १२]

(३१)

वितहं वि तहामुत्ति, जं गिरं भासए नरो ।
 तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो मुसं वए ? ॥११॥
 [दश० अ० ७ गा० १३]

(३२)

तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओववाइणी ।
 सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥१२॥
 [दश० अ० ७ गा० १४]

(२६)

विचारवान मुनि को वचन-शुद्धि का भली-भांति ज्ञान प्राप्त करके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए और खूब सोच-विचार कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह बोलने से सत्पुरुषों में महान् प्रशंसा प्राप्त होती है ।

(३०)

काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।)

(३१)

जो मनुष्य भूलसे भी मूलतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालूम होनेवाली भाषा बोल उठता है, और वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पाप का तो कहना ही क्या !

(३२)

जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुःख पहुँचानेवाली हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए । क्यों कि इससे पाप का आस्रव होता है ।

: ५ :

अतेणग-सुत्तं

(३३)

चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।

दंतसोहणमित्तं पि, उग्गहं से अजाइया ॥१॥

[दश० अ० ६ गा० १४]

(३४)

तं अप्पणा न गिएहंति, नो वि गिएहावए परं ।

अन्नं वा गिएहमाणं पि, नाणुजाणंति संजया ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १५]

(३५)

उड्ढं अहे य तिरियं दिसासु,

तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता,

अदिन्नमन्न सु य नो गहेज्जा ॥३॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १० गा० २]

(३६)

तिव्वं तसे पाणिणो थावरे य,

जे हिंसति आयसुहं पडुच्च ।

जे लूसए होइ अदत्तहारी,

ण सिक्खई सेयवियस्स किंचि ॥४॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ४]

अस्तेनक-सूत्र

(३३-३४)

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत और तो क्या, दाँत कुरेदने की सीक भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण-संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरों को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करते हैं, और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन ही करते हैं ।

(३५)

ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें संयम से रह कर अपने हाथों से, पैरों से,—किसी भी अंग से पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये । दूसरों की बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

(३६)

जो मनुष्य अपने सुख के लिये त्रस तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरता-पूर्वक हिंसा करता है—उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरों की चोरी करता है, जो आदरणीय व्रतों का कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयंकर बलेश उठाता है) ।

(३७)

दन्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ।

अणवज्जेसण्णिज्जस्स, गिएहणा अवि दुक्करं ॥५॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २७]

(३७)

दाँत कुरेदने की सीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी बिना दिए चोरी से न लेना, (बड़ी चीजों को चोरी से लेने की तो बात ही क्या ?) निर्दोष एवं पृथगीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुष्कर बात है ।

: ६ :

ब्रंभचरिय-सुत्तं

(३८)

विरई अबंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।
स्रगं महव्वयं वंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥१॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २८]

(३९)

अबंभचरियं घोरं, पमायं दुरहिट्टियं ।
नाऽऽयरन्ति सुणी लोण, भेयाययणवज्जिणो ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १६]

(४०)

मूलमेयमहम्मस्स महादोससमुस्सयं ।
तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा वज्जयन्ति णं ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० ११]

(४१)

विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।
नरस्सऽत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥४॥

[दश० अ० ८ गा० २७]

: ६ :

ब्रह्मचर्य-सूत्र

(३८)

काम-भोगी का रस जान लेनेवाले के लिए अ-ब्रह्मचर्य से विरक्त होना और उग्र ब्रह्मचर्य महाघत का धारण करना, बड़ा कठिन कार्य है ।

(३९)

जो मुनि संथम-घातक दोषों से दूर रहते हैं, वे लोक में रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमाद-स्वरूप और भयंकर अ-ब्रह्मचर्य का कभी सेवन नहीं करते ।

(४०)

यह अ-ब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महा-दोषों का स्थान है, इसलिए निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

(४१)

आत्म-शोधक मनुष्य के लिए शरीर का शृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक-श्वादिष्ट भोजन— सब तालपुट बिष के समान महाघ्न भयंकर हैं ।

(४२)

न रुवलावण्णविलासहासं,
न जंपियं इंगिय-पेहियं वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,
दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १४]

(४३)

अदंसणं चेव अपत्थणं च,
अचित्तणं चेव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्साऽऽरियज्जाणजुगं,
हियं सया वंभवए रयाणं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १५]

(४४)

मणपल्हायजणणी, कामरागविवड्ढणी ।
वंभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २]

(४५)

समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।
वंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥८॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ३]

(४२)

श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर-वचन, संकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदि का मनमें तनिक भी विचार न लाये, और न इन्हें देखने का कभी प्रयत्न करे ।

(४३)

स्त्रियों को राग-पूर्वक देखना उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष को कदापि नहीं करने चाहिए । ब्रह्मचर्य-वन में सदा रत रहने की इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यन्त हितकर है, और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ।

(४४)

ब्रह्मचर्य में अनुरक्त भिक्षु को मनमें वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को छोड़ देना चाहिए ।

(४५)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों के साथ बात-चीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना चाहिये ।

(४६)

अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लविय-पेहियं ।

बंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ४]

(४७)

कूइयं रुइयं गीयं, हसियं थणिय-कन्दियं ।

बंभचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जए ॥७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ५]

(४८)

हासं किडुं रइं दप्पं, सहस्साऽवत्तासियाणि य ।

बंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयोइ वि ॥११॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(४९)

पणीयं भत्ताणं तु खिप्पं मयविवद्धणं ।

बंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ७]

(५०)

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणव्वं ।

नाइमत्तं तु भुंजेज्जा, बंभचेररओ सया ॥१३॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ८]

(४६)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को न तो स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की सुन्दर आकृति की ओर ध्यान देना चाहिए, और न आँखों में विकार पैदा करनेवाले हाव-भावों और स्नेह-भरे मीठे वचनों की ही ओर ।

(४७)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों का कूजन (अव्यक्त आवाज) रोदन, गीत, हास्य, सीस्कार और करुण-कन्दन—जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं—सुनना छोड़ देना चाहिए ।

(४८)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियों के पूर्वानुभूत हास्य, क्रीड़ा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे ।

(४९)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शीघ्र ही वासना-वर्धक पुष्टि-कारक भोजन-पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए ।

(५०)

ब्रह्मचर्य-रत स्थिर-चित्त भिक्षु को संयम-यात्रा के निर्वाह के लिए हमेशा धर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिए । कैसी ही भूख क्यों न लगी हो, कालच-वश अधिक मात्रा में कभी भोजन नहीं करना चाहिए ।

(५१)

जहा दवग्गी पउरिन्धणे वणे,
 समारुओ नोवसमं उवेइ ।
 एविन्दियग्गी वि पगामभोइणी,
 न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ११]

(५२)

विभूसं परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडणं ।
 वंभचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धोरए ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(५३)

सद्दे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य ।
 पंचविहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥१६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १०]

(५४)

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।
 संकट्टाणाणि सव्वाणि, वज्जेज्जा पाणिहाणवं ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(५१)

जैसे बहुत इबादा ईंधनवाले जङ्गल में पवन से उत्तेजित दावाग्नि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादा से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी की इंद्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती । अधिक भोजन किसी को भी हितकर नहीं होता ।

(५२)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को श्रृंगार के लिए, शरीर की शोभा और सजावट का कोई भी श्रृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये ।

(५३)

ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-गुणों को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये ।

(५४)

स्थिर-चित्त भिक्षु, दुर्त्य काम-भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे । इतना ही नहीं, जिससे ब्रह्मचर्य में तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शक्ता-स्थानों का भी उसे परित्याग कर देना चाहिये ।

(५५)

कामाणुगिद्विष्पभयं खु दुक्खं,
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

अं काइयं माणसियं च किंचि,
तस्सऽन्तर्गं गच्छई वीयरगो ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ३९ गा० ११]

(५६)

देवदाणवगन्धव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।
बंभयारि नमंसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति तं ॥१९॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० १६]

(५७)

एसं धम्मे ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।
सिद्धा सिञ्चन्ति चाणेणं, सिञ्चिस्सन्ति तहा परे ॥२०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १७]

(५५)

देवलोक सहित समस्त संसार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःख का मूल एक-मात्र काम-भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्ध में वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है।

(५६)

जो मनुष्य इस प्रकार हुंकर ब्रह्मचर्य का पावन करता है, उसे देव, वानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

(५७)

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे।

अप्परिगाह-सुत्तं

(५८)

न सो परिगहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।
मुच्छा परिगहो वुत्तो, इइ वुत्तां महेसिणा ॥१॥

[दश० अ० ६ गा० २९]

(५९)

धण-धन्न-पेसवग्गेसु, परिगहविवज्जणं ।
सव्वारंभ-परिच्चाओ, निम्ममत्तां सुटुक्करं ॥२॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २६]

(६०)

विड्मुब्भेइमं लोणं, तेल्लं सप्पिं च फाणियं ।
न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-वओरया ॥३॥

-[दश० अ० ६ गा० १८]

(६१)

जं पि वत्थं च पायं वा, कंवलं पायपुंद्धणं ।
तं पि संजमलज्जट्टा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥४॥

[दश० अ० ६ गा० २०]

अपरिग्रह—सूत्र

(५८)

प्राणि-मात्र के संरक्षक ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्च्छा का — आशक्ति का रखना बतलाया है।

(५९)

पूर्य-संयमी को धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है।

(६०)

जो संयमी ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनों में रत हैं, वे विद् और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेज, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तु के संग्रह करने का मन में संकल्प तक नहीं करते।

(६१)

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजो-हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब एक-मात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं—काम में लाते हैं। (इनके रखने में किसी प्रकार की आशक्ति का भाव नहीं है।)

(६२)

सञ्चत्थुबहिणा बुद्धा, संरक्खण-परिगहे ।

अवि अण्णो वि देहम्मि, नाऽऽयरन्ति ममाइयं ॥५॥

[दश० अ० ६ गा० २२]

(६३)

लोहस्सेस अणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निहीकामे गिही, पञ्चइए न से ॥६॥

[दश० अ० ६ गा० २६]

(६२)

ज्ञानी पुरुष, संयम-साधक उपकरणों के लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते । और तो क्या, अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते ।

(६३)

संग्रह करना, यह अन्दर रहनेवाले लोभ की भूखक है । अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्बादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है ।

अराइभोयण-सुत्त

(६४)

अत्थगयमि आइच्चे, पुरत्था य अणुग्गए ।
आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥१॥

[दश० अ० ८ गा० २८]

(६५)

सन्तिमे सुहुमा पाणा, तसा अदु व थावरा ।
जाई राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० २४]

(६६)

उदुल्लं वीयसंसत्तं, पाणा निव्वड्डिया महिं ।
दिया ताइं विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कहं चरे ? ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० २५]

(६७)

एयं च दोसं दट्ठुणं, नायपुत्तेण भासियं ।
सव्वाहारं न भुंजंति, निगंथा राइभोयणं ॥४॥

[दश० अ० ६ गा० २६]

अरात्रि-भोजन-सूत्र

(६४)

सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्ग्रन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करना चाहिए ।

(६५)

संसार में बहुत से त्रस और स्थावर प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं—वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते ; तब रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६६)

जमान पर कहीं पानी पड़ा होता है; कहीं बीज बिखरे होते हैं, और कहीं पर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े आदि जीव होते हैं । दिन में तो उन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको बचा कर भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६७)

इस तरह सब दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्र ने कहा है कि निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करें ।

(६८)

चउन्विहे वि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।
सन्निही-संचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥५॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० ३०]

(६९)

पाणिवह-मुसावायाऽदत्त-मेहूण-परिग्गहा विरओ ।
राइभोयणविरओ, जीवो भवई अणासवो ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३० गा० ३]

(६८)

अन्न आदि चारों ही प्रकार के आहार का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में खाद्य सामग्री का सङ्ग्रह करना निबिद्ध है । अतः अरात्रि-भोजन वास्तव में बड़ा दुष्कर है ।

(६९)

हिंसा, मूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरत (पृथक्) रहता है, वह 'अनात्मव' (आत्मा में पाप-कर्म के प्रविष्ट होने के द्वारा अनात्मव कहलाते हैं, उनसे रहित = अनात्मव) हो जाता है ।

: ६ :

विणय-सुत्तं

(७०)

मूलाञ्चो खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहा-प्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तञ्चो य से पुष्कं फलं रसो य ॥१॥

[दश० अ० ६ उ० २ गा० १]

(७१)

एधं धम्मस्स विणञ्चो, मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण कित्तिं सुयं सिग्घं, निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

[दश० अ० ६ उ० २ गा० २]

(७२)

अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्भइ ।
धम्भा कोहा पमाएणं, रोगेणाऽऽलस्सएण य ॥३॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ३]

: ६ :

विनय-सूत्र

(७०)

वृक्ष के मूल से सबसे पहले स्कन्ध पैदा होता है, स्कन्ध के बाद शाखाएँ और शाखाओं से दू-परी छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती हैं। छोटी टहनियों से पत्ते पैदा होते हैं। इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं।

(७१)

इसी भाँति धर्म का मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनय से ही मनुष्य बहुत जल्दी श्लाघायुक्त संपूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति सम्पादन करता है।

(७२)

इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता :—

अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, कुष्ठ आदि रोग से, और आज्ञस्थ से।

(७३-७४)

अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ।
 अहस्सिरे सयादन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥४॥
 नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।
 अकोहणे सच्चरए, सिक्खासीलि त्ति वुच्चइ ॥५॥

[उत्तराः अ० ११ गा० ४-२]

(७२)

आणानिहेसकरे, गुरुणमुववायकारए ।
 इगियाणारसपन्ने से विणीए त्ति वुच्चइ ॥६॥

[उत्तरा० अ० १ गा० २]

(७६-७६)

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
 नीयावित्ती अचवत्ते, अमाई अकुउद्धत्ते ॥७॥
 अप्प च अहिकिखवई, पयन्ध च न कुब्बई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुर्य लद्धुं न मज्जइ ॥८॥
 न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पइ ।
 अप्पियत्साऽवि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासइ ॥९॥
 कलहडमरवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चइ ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० १०-११-१२-१३]

(७३-७४)

इन आठ कारणों से मनुष्य शिष्या-शील कहलाता है :

हर समय हँसनेवाला न हो, सतत इंद्रिय-निग्रही हो, दूसरों को मर्म-भेदी वचन न बोलता हो, सुशील हो, दुराचारी न हो, रसजोलुप न हो, सत्य में रत हो, क्रोधी न हो—शान्त हो ।

(७५)

जो गुरु की आज्ञा पाबता है, उनके पास रहता है, उनके हंगितों तथा आकारों को जानता है, वही शिष्य विनीत कहलाता है

(७६-७६)

इन पन्द्रह कारणों से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है :

उद्धत न हो—नम्र हो, चपल न हो—स्थिर हो, मायावी न हो—सरल हो, कुतूहली न हो—गम्भीर हो, किसी का तिरस्कार न करता हो, क्रोध को अधिक समय तक न रखना हो—शोच्य हो शान्त हो जाता हो, अपने से मित्रता का व्यवहार रखनेवालों के प्रति पूरा सद्भाव रखता हो, शास्त्रोंके अध्ययन का गर्व न करता हो, किसी के दोषों का भयडाफोड़ न करता हो, मित्रों पर क्रोधित न होता हो, अप्रिय मित्र की भी पीठ-पीछे भलाई ही करता हो, किसी प्रकार का भगड़ा-रुसाद न करता हो, बुद्धिमान हो, अभिजात अर्थात् कुलीन हो, लज्जाशील हो, एकाम्र हो ।

(८०)

आणाऽनिहे सकरे, गुरुणमणुववायकारए ।
पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए त्ति बुच्चइ ॥११॥

[उत्तरा० अ० १ गा० ३]

(८१-८३)

अभिकखणं कोही हवइ, पवन्धं च पकुब्बई ।
मेतिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्जई ॥१२॥
अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।
सुप्पियस्साऽवि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ॥१३॥
पइण्णवादी दुहिले, थद्धे लुद्धे अण्णिग्गहे ।
असंविभागी अचियत्ते, अविणीए त्ति बुच्चइ ॥१४ ॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ७-८-९]

(८४)

जस्सन्तिए धम्मपयाई सिक्खे,
तस्सन्तिए वेणइयं पउंजे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ,
काय-गिरा भो ! मणसा य त्तिच्चं ॥१५॥

[दशा० अ० ३ उ० १ गा० १२]

विनय-सूत्र

(८०)

जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता, जो उनसे शत्रुता का बर्ताव रखता है, जो विवेक-शून्य है, उसे अधिनीत कहते हैं ।

(८१-८३)

जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका क्रोध शीघ्र ही शान्त नहीं होता, जो मित्रता रखनेवालों का भी तिरस्कार करता है, जो शास्त्र पढ़कर गर्व करता है, जो दूसरों के दोषों को प्रकट करता रहता है, जो अपने मित्रों पर भी क्रुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे मित्र की भी पीठ-पीछे बुराई करता है; जो मनमाना बोल उठता है—बकवादी है, जो स्नेही-जनों से भी द्रोह रखता है, जो अहंकारी है, जो लुब्ध है, जो इन्द्रियनिग्रही नहीं, जो आहार आदि पाकर अपने साधर्मों को न देकर अकेला ही खानेवाला अधिसंभागी है, जो सबको अप्रिय है, वह अधिनीत कहलाता है ।

(८४)

शिष्य का कर्तव्य है कि वह जिस गुरु से धर्म-प्रवचन सीखे, उसकी निरंतर विनय-भक्ति करे । मस्तक पर अंजलि चढ़ाकर गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी होसके मन से, बचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे ।

(८५)

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
 गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।
 सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
 फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥१६॥

[दश० अ० ६ उ० १ गा० १]

(८६)

विवन्ती अविणीयस्स, संपन्ती विणीयस्स य ।
 जस्सेयं दुहओ नारयं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥१७॥

[दश० अ० ६ उ० २ गा० २२]

(८५)

जो शिष्य अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के कारण गुरु को विनय (भक्ति) नहीं करता, वह अभूति अर्थात् पतन को प्राप्त होता है। जैसे बॉस का फल, उसके ही नाश के लिए होता है, उसी प्रकार अविनीत का ज्ञान-बल भी उसी का सर्व-नाश करता है।

(८६)

‘अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति’—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

: १० :

चाउरंगिज्ज-सुत्तं

(८७)

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १]

(८८)

एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडाल-बुक्कसो ।
तओ कीड-पयंगो य, तओ कुन्थु-पिवीलिया ॥२॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ४]

(८९)

एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिट्ठिसा ।
न निट्ठिज्जन्ति संसारे, सव्वट्टेसु व खत्तिया ॥३॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ५]

(९०)

कम्मसंगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।
अमाणुसासु जोणीसु, त्रिणिहम्मन्ति पाणिणो ॥४॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ६]

चतुरङ्गीय—सूत्र

(८७)

संसार में जीवों को इन चार श्रेष्ठ अङ्गों (जीवन-विकास के साधनों) का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है :

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ ।

(८८)

कभी वह क्षत्रिय होता है और कभी चाण्डाल, कभी वर्ण-संकर—बुक्कस, कभी कीड़ा, कभी पतङ्ग, कभी कुंथुआ, तो कभी चींटी होता है ।

(८९)

पाप-कर्म करनेवाले प्राणी इस भाँति हमेशा बदलती रहने वाली योनियों में बारम्बार पैदा होते रहते हैं, किंतु इस दुःखपूर्ण संसार से कभी खिल नहीं होते, जैसे दुःखपूर्ण राज्य से क्षत्रिय ।

(९०)

जो प्राणी काम-वासनाओं से विमूढ़ हैं, वे भयङ्कर दुःख तथा वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योनियों में भटकते रहते हैं ।

(६१)

कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाइ उ ।
जीवा सोहिमणुपत्ता, आययन्ति मणुस्सयं ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ७]

(६२)

माणुस्सं विगहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।
जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं खन्तिमहिंसयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ८]

(६३)

आहच्च सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।
सोच्चा नेयाउयं मगं, बहवे परिभस्सई ॥७॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ९]

(६४)

सुई च लद्धुं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं ।
बहवे रोयमाणा वि, नो य गां पडिवज्जए ॥८॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १०]

(६१)

संसार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पाप-कर्मों का वेग क्षीण होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमशः शुद्धि को प्राप्त करता है; तब वही मनुष्य-जन्म मिलता है।

(६२)

मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं।

(६३)

सौभाग्य से यदि कभी धर्म का श्रवण हो भी जाय, तो उस पर श्रद्धा का होना अत्यन्त दुर्लभ है। कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्ग को—सत्य-सिद्धान्त को—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते।

(६४)

सद्धर्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है। क्योंकि संसार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरण में नहीं लाते !

(६५)

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सहहे ।
तवस्सी वीरियं लद्धुं, संवुडे निद्धुणे रयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ११]

(६६)

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।
निव्वारणं परमं जाइ, घयसित्ते व पावए ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १२]

(६७)

विगिंच कम्मणो हेउं, जसं संचिणु खन्तिए ।
सरीरं पाढवं हिच्चा, उड्ढं पक्कमई दिसं ॥११॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १३]

(६८)

चउरंगं दुल्लहं मत्ता, संजमं पडिवज्जिया ।
तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हथइ सासए ॥१२॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० २०]

(६५)

परन्तु जो तपस्वी मनुष्यत्व को पाकर, सद्धर्म का श्रवण कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आस्रव-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्म-रज को झटक देता है ।

(६६)

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है । और, जिस की आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पास भ्रम ठहर सकता है । वी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति होता है ।

(६७)

कर्मों के पैदा करनेवाले कारणों को ढूँढो—उनका जेद करो, और फिर जमा आवि के द्वारा अक्षय ब्रह्म का संचय करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व-दिशा को प्राप्त करता है—अर्थात् उच्च और श्रेष्ठ गति पाता है ।

(६८)

जो मनुष्य उक्त चार अंगों की दुर्लभ जानकर संयम-मार्ग स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कर्माणों का नाश कर सदा के लिये सिद्ध हो जाता है ।

: ११ :

अप्पमाय-सुत्तं

(६६)

असंखयं जीविय मा पमायए,
जरोवशीयस्स हु नत्थि ताणं ।
एवं विजाणाहि जणे पमत्ते,
कं नु विहिंसा अजया गह्निन्ति ? ॥१॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

(१००)

जे पावकम्मेहि धणं मग्गुस्सा,
समाययन्ति अमयं गहाय ।
पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥२॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० २]

(१०१)

वित्तेण ताणं न लभे पमत्त,
इमम्मि लोए अदुवा परत्थ ।
दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे
नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥३॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ३]

अप्रमाद-सूत्र

(६६)

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जाने के बाद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।

‘प्रमाद, हिंसा और असंयम में अमूल्य यौवन-काल बिता देने के बाद जब वृद्धावस्था आवेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा — तब किस की शरण लोगे ?’ यह खूब सोच-विचार लो ।

(१००)

जो मनुष्य अनेक पाप-कर्म कर, वैर-विरोध बढ़ाकर अमृत की तरह धन का संग्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मों के दृढ़ पाश में बँधे हुए सारी धन-सम्पत्ति यहीं छोड़कर, नरक को प्राप्त होते हैं ।

(१०१)

प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी रक्षा कर सकता है और न परलोक में ! फिर भी धन के असीम मोह से मूढ़ मनुष्य, दीपक के बुझ जाने पर, जैसे मार्ग नहीं देख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

(१०२)

तेरो जहा सन्धिमुहे गहीए,
 सकम्मुणा किञ्चइ पावकारी ।
 एवं पया पेञ्च इहं च लोए,
 कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥४॥

[उत्तराः अ० ४ गा० ३]

(१०३)

संसारमावन्न परस्स अट्ठा,
 साहारणं जं च करेइ कम्मं ।
 कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,
 न बन्धवा बन्धवयं उवेन्ति ॥५॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ४]

(१०४)

सुत्तेसु या वि पडिबुद्धजीवी,
 न वीससे पंडिए आसुपत्ते ।
 घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं,
 भारंडपक्खी व चरेऽपमत्ते ॥६॥

[उत्तराः अ० ४ गा० ६]

(१०२)

जैसे चोर सेंध के द्वार पर पकड़ा जाकर अपने ही दुष्कर्म के कारण चोरा जाता है, वैसे ही पाप करनेवाला प्राणी भी इस लोक में तथा परलोक में—दोनों ही जगह—भयङ्कर दुःख पाता है । क्योंकि कृत कर्मों को भोगे बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१०३)

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियों के लिए बुरे-से-बुरे पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दुष्फल भोगने का समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है, कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख बंटानेवाला--प्रहायता पहुँचानेवाला नहीं होता ।

(१०४)

आशु-प्रज्ञ पंडित-पुरुष को मोह-निद्रा में सोते रहनेवाले संसारी मनुष्यों के बीच रहकर भी सब ओर से जागरूक रहना चाहिए—किसीका विश्वास नहीं करना चाहिए । 'काल निर्दय है और शरीर निर्बल' यह जानकर भारण्ड पत्नी की तरह हमेशा प्रप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए ।

(१०५)

चरे पयाइ परिसंकमाणो,
 जं किंचि पासं इह मरणमाणो ।
 लाभन्तरे जीवियं बूहइत्ता,
 पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥७॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ७]

(१०६)

छन्दंनिरोहेण उवेइ मोक्खं,
 आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी ।
 पुब्बाइं वासाइं चरेऽप्पमत्ते,
 तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्खं ॥८॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ८]

(१०७)

स पुव्वमेवं न लभेज्ज पच्छा,
 एसोवमा सासयवाइयाणां ।
 विसीयई सिद्धित्ते आउयम्मि,
 कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥९॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ९]

(१०५)

संसार में जो धन जन आदि पदार्थ हैं, उन सब को पाशरूप जानकर मुमुक्षु को बड़ी सावधानी से फूँक-फूँक कर पाँव रखना चाहिये। जबतक शरीर लशबत है, तबतक उसका उपयोग अधिक से अधिक संयम-धर्म की साधना के लिए कर लेना चाहिए। बाद में जब वह बिलकुल ही अशक्त हो जावे, तब बिना किसी मोह-ममताके मिट्टी के ढेले के समान उसका त्याग कर देना चाहिए।

(१०६)

जिस प्रकार शिचित्त (सधा हुआ) तथा कवचधारी बोद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन-संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घकाल तक अप्रमत्तरूप से संयम-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष-पद पाता है।

(१०७)

शाश्वत-वादी लोग कल्पना किया करते हैं कि 'सुकर्म-साधना की अभी क्या जल्दी है, आगे कर लेंगे !' परन्तु यों करते-करते भोग-विलास में ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और एक दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है। अन्तिम समय में कुछ भी नहीं बन पाता; उस समय तो मूर्ख मनुष्य के भाग्य में केवल पड़ताना ही शेष रहता है।

(१०८)

खिण्णं न सक्केइ विवेगमेउं,
 तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।
 समिच्च लोयं समया महेसी,
 आयागुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥१०८॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १०]

(१०९)

मुहं मुहं मोहगुणे जयन्तं,
 अणोगरूवा समणं चरन्तं ।
 फासा फुसन्ती असमंजसं च,
 न तेसि भिक्खू मणसा पडस्से ॥१०९॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ११]

(११०)

मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा,
 तहप्पगारेसु मणं न कुज्जा ।
 रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,
 मायं न सेवे पयहैज्ज लोहं ॥११०॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १२]

(१०८)

आत्म-विवेक भटपट प्राप्त नहीं हो जाता— इसके लिए भारी साधना की आवश्यकता है। मद्भिर्जनों को बहुत पहले से ही संयम-पथ पर दृढ़ता से खड़े होकर काम-भोगों का परित्याग कर, समतापूर्वक स्वार्थी संसार की वास्तविकता को समझकर अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा अप्रमादीरूप से विचरना चाहिये।

(१०९)

मोह-गुणों के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने-वाले श्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्शों का भी बहुत बार सामना करना पड़ता है। परन्तु भिक्षु उनपर तनिक भी अपने मन को लुब्ध न करे— शान्त भाव से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता रहे।

(११०)

संयम-जीवन में मन्दता लाने वाले काम-भोग बहुत ही लुभावने मालूम होते हैं। परन्तु संयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन को कभी आकृष्ट न होने दे। आत्म-शोधक साधक का कर्तव्य है कि वह क्रोध को दबाए, अहङ्कार को दूर करे, माया का सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे।

(१११)

जे संख्या तुच्छ परपवाई,
 ते पिज्ज-दोसाणुगया परज्झा ।
 एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणो,
 कंखे. गुणे जाव सरीरभेए ॥१३॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १३]

(१११)

जो मनुष्य ऊपर-ऊपर से संस्कृत जाम पड़ते हैं परन्तु वस्तुतः तुच्छ हैं, दूसरों की निन्दा करनेवाले हैं, रागी-द्वेषी हैं, परबश हैं, वे सब अधर्माचरणवाले हैं—इस प्रकार बिचार-पूर्वक दुर्गुणों से घृणा करता हुआ सुमुक्त शरीर-नाश पर्यन्त (जीवन-पर्यन्त) केवल सद्गुणों की ही कामना करता रहे ।

: ११-२ :

अपमाय-सुत्तं

(११२)

दुमपत्तए पंडुयए जहा निवडइ राइगणाए अच्चए ।
एवं मग्गुयाए जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥

(११३)

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एवं मग्गुयाए जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२॥

(११४)

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए ।
विट्ठणाहि रयं पुरेकडं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥३॥

(११५)

दुल्लहे खलु माग्गुसे भवे, चिरकालेण वि सन्व-पाणिणं ।
गढा य विवाग कग्गुणो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥४॥

: ११-२ :

अप्रमाद-सूत्र

(११२)

जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़-ऋतुकाळिक रात्रि-समूह के बीत जाने के बाद पीछा होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी आयु समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११३)

जैसे ओस की बूँद कुशा की नोक पर थोड़ी देर तक ही रहती है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११४)

अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव-जीवन में पूर्व सञ्चित कर्मों की धूल को पूरी तरह झटक दे । इसके लिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११५)

दीर्घकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कृत-कर्मों के विपाक अत्यन्त प्रगाढ़ होते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११६)

एवं भवसंसारं संसरइ, सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।
जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० १५]

(११७)

लद्धूण वि माणुसत्तणं, आरियत्तं पुणरावि दुल्लभं ।
बहवे दस्सुया मिलक्खुया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

(११८)

लद्धूण वि आरियत्तणं, अहीणपंचिन्दिया हू दुल्लहा ।
विगलिन्दियया हू दीसई, समयं ! गोयम मा पमायए ॥७॥

(११९)

अहीणपंचेन्दियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हू दुल्लहा ।
कुत्तिथिनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

(१२०)

लद्धूण वि उत्तमं सुइं, सद्धहणा पुणरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥९॥

(११६)

प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण अनन्त बार भव-चक्र में इधर से उधर घूमा करता है । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११७)

मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? आर्यत्व का मिटना बड़ा कठिन है । बहुत-से जीव मनुष्यत्व पाकर भी दस्यु और श्लेच्छ जातियों में जन्म लेते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११८)

आर्यत्व पाकर भी पाँचों इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग आर्य क्षेत्र में जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियों वाले देखे जाते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११९)

पाँचों इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त होना कठिन है । बहुत से लोग पाखण्डी गुरुओं की सेवा किया करते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२०)

उत्तम धर्म का श्रवण पाकर भी उसेपर श्रद्धा का होना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग सब कुछ जान-बूझकर भी मिथ्यात्व की उपासना में ही लगे रहते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२१)

धम्मं पि हु सदहन्तया, दुल्लहया काएण फासया ।
इह कामगुणेहि मुच्छिया, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥
[उत्तरा० अ० १० गा० १६-२०]

(१२२)

परिञ्चइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।
से सब्बजले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥११॥
[उत्तरा० अ० १० गा० २६]

(१२३)

अरई गण्डं विमूइया, आयंका विविहा फुसन्ति ते ।
विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए
॥१२॥

(१२४)

बोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं ।
से सब्बसिणेहवज्जिए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

(१२५)

चिच्चारु भणं च भारियं, पव्वइओ हि सि अणगारियं ।
मा वन्तं पुणो वि आविए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१४॥

(१२१)

धर्म पर श्रद्धा होने पर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है । संसार में बहुत-से धर्म-श्रद्धाली मनुष्य भी काम-भोगों में मूर्च्छित रहते हैं । हे गौतम ! क्षय-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२२)

तेरा शरीर दिन-प्रति-दिन जीर्ण होता जा रहा है, सिर के बाल झड़कर श्वेत होने लगे हैं, अधिक क्या—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का बल घटता जा रहा है । हे गौतम ! क्षय-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२३)

अरुचि, फोड़ा, विसूचिका (हैजा) आदि अनेक प्रकार के रोग शरीर में बढ़ते जा रहे हैं; इनके कारण तेरा शरीर विस्तुल्लक्षणीय तथा ध्वस्त हो रहा है । हे गौतम ! क्षय-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२४)

जैसे कमल शरत्काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता—बल्लभ अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी संसार से अपनी समस्त आसक्तियों दूर कर, सब प्रकार के स्नेह-बन्धनों से रहित हो जा । हे गौतम ! क्षय-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२५)

स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान् अनगार पद को पा चुका है, इसलिये अब फिर इन नमन की हुई वस्तुओं का पान न कर । हे गौतम ! क्षय-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२६)

उद्वडिभय मित्तबन्धवं, विउलं चैव धणोहसंचयं ।

मा तं विइयं गवेसए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २७-३०]

(१२७)

अब्रले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छागुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

(१२८)

तिएणो सि अण्णवं महं, किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ?

अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ३३-३४]

(१२९)

बुद्धस्स निसम्म भासियं, सुकहियमट्ठपदोवसोहियं ।

रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगइं गए गोयमे ॥१८॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ३७]

(१२६)

विपुल धनगणि तथा मित्र-शान्धवों को एकबार स्वेच्छा-पूर्वक छोड़कर, अब दोबारा उनकी संवेषणा (पूछताछ) न कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२७)

धुमावहार विषम मार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ मार्ग पर चल । विषम मार्ग पर चलनेवाले निर्बल भार-वाहक की तरह बाद में पछुतानेवाला न बन । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२८)

तू विशाल संसार-समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे आकर क्यों अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२९)

भागवान् महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोंवाले सुभाषित वचनों को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का छेदन कर सिद्ध-गति को प्राप्त हो गये ।

: १२ :

पमायङ्गाण-सुत्तं

(१३०)

पमार्यं कम्ममाईसु, अप्पमार्यं तहावरं ।

तवभावादेसञ्चो वावि, बालं पडियमेव वा ॥१॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० ३]

(१३१)

जहा य अण्डप्पभवा बलागा,

अण्डं बलागप्पभवं जहा य

एमेव मोहाययणं खु तएहा,

मोहं च तएहाययणं वयन्ति ॥२॥

(१३२)

रागो य दोसो वि य कम्मवीर्यं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयन्ति ।

कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,

दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥३॥

प्रमाद—स्थान-सूत्र

(१३०)

प्रमाद को कर्म कहा गया है और अप्रमाद को अकर्म--अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद-युक्त हैं वे कर्म-बन्धन करनेवाली हैं, और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद रहित हैं वे कर्म-बन्धन नहीं करतीं। प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य क्रमशः सुख और पंडित कहलाता है।

(१३१)

जिस प्रकार बगुली अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुली से पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा का उत्पत्ति-स्थान मोह है।

(१३२)

राग और द्वेष—दोनों कर्म के बीज हैं। अतः मोह ही कर्म का उत्पादक माना गया है। कर्म-सिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हैं कि संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण—यही एकमात्र दुःख है।

(१३३)

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,
 मोहो हओ जस्स न होइ तएहा ।
 तएहा हया जस्स न होइ लोहो,
 लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥४॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ६-८]

(१३४)

रसो पगामं न निसेवियव्वा,
 पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।
 दित्तं च कामा समभिदधन्ति,
 दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १०]

(१३५)

रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे से जह वा पयंगे,
 आलोयलोले समुवेइ मच्चुं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० २४]

(१३३)

जिसे मोह नहीं उसे दुःख नहीं; जिसे तृष्णा नहीं उसे मोह नहीं; जिसे लोभ नहीं उसे तृष्णा नहीं; और जिनके पास लोभ करने योग्य कोई पदार्थ-संग्रह नहीं है, उनमें लोभ भी नहीं ।

(१३४)

दूध-दही आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए; क्योंकि रस प्रायः मनुष्यों में मादकता पैदा करते हैं । मत्त मनुष्य की ओर काम-वासनायें जैसे ही दौड़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पत्ती ।

(१३५)

जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल में ही नष्ट हो जाता है । रागातुर व्यक्ति रूपदर्शन ही लालसा में जैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीपक की न्योति को देखने की लालसा में पतंग ।

(१३६)

रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
 कुतो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेस-दुक्खं,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७॥

(१३७)

एमेव रूवम्मि गओ पओसं,
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पटुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
 जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥८॥

(१३८)

रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पए भवमज्जे वि सन्तो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपत्तासं ॥९॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ३२-३४]

(१३९)

एविन्दियत्था य मणस्स अत्था,
 दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।
 ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,
 न वीयरागस्स करेन्ति किंचि ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १००]

(१३६)

रूप में आसक्त मनुष्य को कहीं भी कभी किंचिन्मात्र सुख नहीं मिल सकता । खेद है कि जिसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य महान् कष्ट उठाता है, उसके उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर प्लेश तथा दुःख ही पाता है ।

(१३७)

जो मनुष्य कुत्सित रूपों के प्रति द्वेष रखता है, वह भविष्य में असौम दुःख-परंपरा का भागी होता है । प्रदुष्टचित्त द्वारा ऐसे पापकर्म संचित किये जाते हैं, जो विपाक-काल में भयंकर दुःख-रूप होते हैं ।

(१३८)

रूप-विरक्त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है । वह संसार में रहते हुये भी दुःख-प्रवाह से अलिप्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल से ।

(१३९)

रागी मनुष्य के लिए ही उपयुक्त इन्द्रियों तथा मन के विषय-भोग दुःख के कारण होते हैं । परन्तु वीतरागी को किसी प्रकार कभी तनिक-सा दुःख नहीं पहुँचा सकते ।

(१४०)

न कामभोगा समयं उवेन्ति,
 न यात्रि भोगा विगई उवेन्ति ।
 जे तप्पओसी य परिग्गही य,
 सो तेसु मोहो विगई उवेइ ॥११॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १०१]

(१४१)

अणाइकोलपभवस्स एसो,
 सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।
 वियाहिओ जं ससुविच्च सत्ता,
 क्रमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥१२॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १११]

(१४०)

काम-भोग अपने-आप न किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में राग-द्वेषरूप विकृति पैदा करते हैं । परन्तु मनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग-द्वेष के नाना संकल्प बनाकर मोह से विकार-ग्रस्त हो जाता है ।

(१४१)

अनादि काल से उत्पन्न होते रहने वाले सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से छूट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है । जो प्राणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते हैं वे क्रमशः मोक्ष-धाम प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं ।

: १३ :

कसाय-सुत्तं

(१४२)

कोहो य माणो य अण्णिगार्हीया,
माया य लोभो य पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एए कसिणा कसाया,
सिंचन्ति मूलाइ' पुण्णभवस्स ॥१॥

[दश० अ० ८ गा० ४०]

(१४३)

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं ।
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

[दश० अ० ८ गा० ३७]

(१४४)

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्वविणासणो ॥३॥

[दश० अ० ८ गा० ३८]

(१४५)

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे ।
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥४॥

[दश० अ० ८ गा० ३९]

: १३ :

कषाय-सूत्र

(१४२)

अनिगृहीत क्रोध और मान; तथा प्रबद्धमान (बढ़ते हुए)
माया और लोभ—ये चारों ही काले कुत्सित कषाय पुनर्जन्म रूपी
संसार-वृक्ष की जड़ों को सींचते हैं ।

(१४३)

जो मनुष्य अपना हित चाहता है उसे पाप को बढ़ानेवाले
क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये
छोड़ देना चाहिए ।

(१४४)

क्रोध प्रीति का नाश करता है; मान विनय का नाश करता
है; माया मित्रता का नाश करती है; और लोभ सभी सद्गुणों
का नाश कर देता है ।

(१४५)

शान्ति से क्रोध को मारो; नम्रता से अभिमान को जीतो;
सरलता से माया का नाश करो; और सन्तोष से लोभ को
काबू में लाओ ।

(१४६)

कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणाऽवि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥४॥

(१४७)

जहा लाहो तथा लोहा, लाहा लोहो पवड्ढइ ।
दोमासकयं कज्जं, कोडीए वि न निट्ठियं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १६-१२]

(१४८)

अहे वयन्ति कोहेण, माणेणं अहमा गई ।
माया गइपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भयं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० २४]

(१४९)

सुवण्ण-रूपस्स उ पव्वया भवे,
सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा हु आगाससभा अणन्तिया ॥८॥

(१५०)

पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह ।
पडिपुण्णं नालमेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥९॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४८-४९]

कपाय-सूत्र

(१४६)

अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व यदि किसी मनुष्य को दे दिया जाये, तो भी वह सन्तुष्ट न होगा। अहो ! मनुष्य की यह तृष्णा बड़ी दुष्पूर है !

(१४७)

ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी; पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी।

(१४८)

क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से अधम गति में जाता है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में महान् भय है।

(१४९)

चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असंख्य पर्वत भी यदि पास में हों, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी नहीं। कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है।

(१५०)

चाँदल और जौ आदि धान्यों तथा सुवर्ण और पशुओं से परिपूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है—यह जानकर संयम का ही आचरण करना चाहिए।

(१५१)

कोहं च माणं च तहेव मायं,

लोभं चउत्थं अज्भत्थदोसा ।

एयाणि वन्ता अरहा महेसी,

न कुव्वई पावं न कारवेई ॥१०॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ६ गा० २६]

(१५१)

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार अन्तरात्मा के भयंकर दोष हैं । इनका पूर्णरूप से परित्याग करने वाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं ।

: १४ :

काम-सुत्तं

(१५२)

सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं ॥१॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १३]

(१५३)

सव्वं विलवियं गीयं, सव्वं नट्टं विडम्बियं ।
सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥२॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० १६]

(१५४)

खणमेत्तसोक्खा बहुकालदुक्खा,
पगामदुक्खा अण्णिगामसोक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥३॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १३]

(१५५)

जहा किंपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुन्दरो ॥४॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १७]

: १४ :

काम-सूत्र

(१५२)

काम-भोग शल्यरूप हैं, विषरूप हैं और विषधर के समान हैं । काम-भोगों की लाजसा रखने वाले प्राणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही अतृप्त दशा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१५३)

गीत सब विजापरूप हैं; नाट्य सब विडम्बनारूप हैं; आभरण सब भाररूप हैं । अधिक क्या; संसार के जो भी काम-भोग हैं, सब-के-सब दुःखावह हैं ।

(१५४)

काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख देने वाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु हैं, अनर्थों की खान हैं ।

(१५५)

जैसे विपाक फलों का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता ।

(१५६)

जहा य किंपागफला मणोरमा,
 रसेण वरणेण य भुंजमाणा ।
 ते खुड्ढए जीविए पच्चमाणा ।
 एसोवमा कामगुणा विवागे ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० २०]

(१५७)

उवलेवो होइ भोगेसु, अबोगी नोवलिपई ।
 भोगी भमइ संसारे, अबोगी विप्पसुच्चई ॥६॥

[उत्तरा० अ० २५ गा० ३६]

(१५८)

चीराजिणं नगिणिणं, जड़ी संघाडि मुंढिणं ।
 एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० २१]

(१५९)

जे केइ सरीरे सत्ता, वरणे रूवे य सव्वसो ।
 मणसा काय-वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥८॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १२]

(१६०)

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,
 न यावि भोगा पुरिसाण निच्चा ।

(१५६)

जैसे किंपाक फल रूप-रंग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते समय तो बड़े अच्छे मालूम होते हैं, पर खा लेने के बाद जीवन के नाशक हैं; वैसे ही कामभोग भी प्रारंभ में बड़े मनोहर लगते हैं, पर विपाक-काज में सर्वनाश कर देते हैं ।

(१५७)

जो मनुष्य भोगी है—भोगासक्त है, वही कर्म-मल से लिप्त होता है; अभोगी लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण किया करता है और अभोगी संसार-बन्धन से मुक्त हो जाता है ।

(१५८)

मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, संघाटिका (बौद्ध भिक्षुओं का—सा उत्तरीय वस्त्र), और मुण्डन आदि कोई भी धर्मचिह्न दुःशील भिक्षु की रक्षा नहीं कर सकते ।

(१५९)

जो अविवेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वर्ण तथा रूप में आसक्त रहते हैं, वे अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

(१६०)

काल बड़ी द्रुत गति से चला जा रहा है, जीवन की एक-एक बरके सब रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, फल-स्वरूप काम-भोग

उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥६॥

[उत्तराः अ० १३ गा० ३१]

(१६१)

अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमग्गं वियाणिया ।

विणिअट्टेज्ज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणो ॥१८॥

[दश० अ० ८ गा० ३४]

(१६२)

पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्तं मणुयाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छ्रया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा ॥११॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० १०]

(१६३)

संबुज्जभह ! किं न बुज्जभह ?

संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो हूवणमन्ति राइओ,

नो सुलभं पुणारवि जीवियं ॥१२॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० १ गा० १]

(१६४)

दुप्परिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सन्ति सुवयो साहू, जे तरन्ति अतरं वणिया व ॥१३॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० ६]

चिरस्थायी नहीं है। भोग-विलास के साधनों से रहित पुरुष को भोग वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे फलविहीन वृक्ष को पत्ती।

(१६१)

मानव-जीवन नश्वर है, उसमें भी आयु तो परिमित है, एक मोक्ष-मार्ग ही अविचल है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त हो जाना चाहिए।

(१६२)

हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन अत्यन्त अल्प है—क्षणभंगुर है, अतः शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। संसार में आसक्त तथा काम-भोगों से मूर्च्छित असंयमी मनुष्य बार-बार मोह को प्राप्त होते रहते हैं।

(१६३)

समझो, इतना क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक् बोधि का प्राप्त होना बड़ा कठिन है। बीतो हुई रात्रियाँ कभी लौटकर नहीं आतीं। फिर से मनुष्य-जीवन पाना आसान नहीं।

(१६४)

काम-भोग बड़ी सुरिकल से छूटते हैं, अधीर पुरुष तो इन्हें सहसा छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महाव्रतों का पालन करने वाले साधुपुरुष हैं, वे ही दुस्तर भोग-समुद्र को तैर कर पार होते हैं, जैसे—व्यापारी वणिक समुद्र को।

: १५ :

असरण-सुत्तं

(१६५)

वित्तं पसवो य नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नई ।

एए मम तेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जई ॥१॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० २ उ० ३ गा० १६]

(१६६)

जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुक्खो ह्यु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥२॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १५]

(१६७)

इमं सरीरं अणिच्चं, असुइं असुइसंभवं ।

असासयावासमिणां, दुक्खकेसाण भायणं ॥३॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १२]

(१६८)

दाराणि सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥४॥

[उत्तरा० अ० १८ गा० १४]

: १५ :

अशरण-सूत्र

(१६५)

मूर्ख मनुष्य धन, पशु और जातिवालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि—‘ये मेरे हैं’ और ‘मैं उनका हूँ’ । परन्तु इनमें से कोई भी आपत्तिकाल में त्राण तथा शरण नहीं दे सकता ।

(१६६)

जन्म का दुःख है, जरा (बुढ़ापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है । अहो ! संसार दुःखरूप ही है ! यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्लेश ही पाता रहता है ।

(१६७)

यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, दुःख और क्लेशों का भ्राम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणों के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो अचानक छोड़कर चले ही जाना है ।

(१६८)

स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन सब जीते जी के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं आता ।

(१६६)

वेया अहीया न भवन्ति ताणं,
 भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।
 जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,
 को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १२]

(१७०)

चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च,
 खेत्तं गिहं धण-धन्नं च सव्वं ।
 कम्मप्पवीओ, अवसो पयाइ,
 परं भवं सुन्दरं पावगं वा ॥६॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० २४]

(१७१)

जहेह सीहो व मियं गहाय,
 मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।
 न तस्स माया व पिया व भाया,
 कालम्मि तस्संसहरा भवन्ति ॥७॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० २२]

(१७२)

जमिणं जगई पुढो जगा कम्मोहिं लुप्पन्ति पाणिणो ।
 सयमेव कडेहि गाहई, नो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठयं ॥८॥

[सूत्र० अ० १ अ० २ उ० १ गा० ४]

पढ़े हुए वेद बचा नहीं सकते; जिमाये हुए ब्राह्मण अन्धकार से अन्धकार में ही ले जाते हैं, पैदा किये हुए पुत्र भी रक्षा नहीं कर सकते; ऐसी दशा में कौन विवेकी पुरुष इन्हें स्वीकार करेगा ?

(१७०)

द्विपद (दास, दासी आदि), चतुष्पद (गाय, घोड़े आदि), क्षेत्र, गृह और धन-धान्य सब कुछ छोड़कर विवशता की दशा में प्राणी अपने कृत कर्मों के साथ अच्छे या बुरे परभव में चला जाता है ।

(१७१)

जिस तरह सिंह हिरण को पकड़कर ले जाता है; उसी तरह अंतसमय मृत्यु भी मनुष्य को उठा ले जाती है । उस समय माता पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते— परलोक में उसके साथ नहीं जाते ।

(१७२)

संसार में जितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के कारण ही दुखी होते हैं । अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म हो, उसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता ।

(१७३)

असासए सरीरम्मि, रई नोवलभामहं ।
 पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुब्बुयसंनिभे ॥६॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १३]

(१७४)

माणुसत्ते असारम्मि, वाहि-रोगाण आलए ।
 जरामरणघत्थम्मि, खणं पि न रमामहं ॥१०॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(१७५)

जीवियं चेव रूवं च, विज्जुसंपायचंचलं ।
 जत्थ तं मुज्झसि रायं ! पेच्चत्थं नावबुज्झसि ॥११॥
 [उत्तरा० अ० १८ गा० १३]

(१७६)

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,
 न मित्तवग्गा न सुया न बन्धवा ।
 एक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,
 कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥१२॥
 [उत्तरा० अ० १३ गा० २३]

(१७७)

न चित्ता तायए भासा,
 कुओ विज्जाणुसासणं ? ।
 विसन्ना पावकम्मेहि,
 वाला पंडियमाणिणो ॥१३॥
 [उत्तरा० अ० ६ गा० १०]

(१७३)

यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या बाद में एक दिन इसे छोड़ना ही है, अतः इसके प्रति मुझे तनिक भी प्रीति (आसक्ति) नहीं है ।

(१७४)

मावन-शरीर असार है, आधि-व्याधियों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है; अतः मैं इसकी ओर से क्षणभर भी प्रसन्न नहीं होता ।

(१७५)

मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चंचल है ! आश्चर्य है, हे राजन्, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो ! क्यों नहीं परलोक का खयाल करते ?

(१७६)

पापी जीव के दुःख को न जातिवाले बँटा सकते हैं, न मित्र वर्ग, न पुत्र; और न भाई-बन्धु । जब दुःख आ पड़ता है, तब वह अकेला ही उसे भोगता है । क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसी के नहीं ।

(१७७)

चित्र-विचित्र भाषा आपत्तिकाल में त्राण नहीं, करती इसी प्रकार मंत्रात्मक भाषा का अनुशासन भी त्राण करनेवाला कैसे हो सकता है ? अतः भाषा और मान्त्रिक विद्या से त्राण पानेकी आशावाले पंडितमन्य मूढ जन पापकर्मों में मग्न हो रहे हैं ।

: १६ :

बाल-सुत्तं

(१७८)

भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।
वाले य मन्दिए मूढे, बज्झइ मच्छिया व खेलम्मि ॥१॥
[उत्तरा० अ० ८ गा० १]

(१७९)

जे गिद्धे कामभोगेसु, एगे कूडाय गच्छई ।
न मे दिद्धे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥२॥
[उत्तरा० अ० १ गा० १]

(१८०)

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए, अत्थिं वा नत्थि वा पुणो ॥३॥

(१८१)

जणेण सद्धिं होक्खामि, इइ वाले पगब्भइ ।
कामभोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जइ ॥४॥

बाल-सूत्र

(१७८)

जो बाल—मूर्ख मनुष्य काम-भोगों के मोहक दोषों में आसक्त हैं, हित तथा निश्चयस के बिचार से शून्य हैं, वे मन्दबुद्धि संसार में वैसे ही फँस जाते हैं, जैसे मक्खी श्लेष्म (कफ) में ।

(१७९)

जो मनुष्य काम-भोगों में आसक्त होते हैं, वे पाश में फँस कर बुरे-से-बुरे पाप-कर्म कर डालते हैं । ऐसे लोगों की मान्यता होती है कि—‘ परलोक हमने देखा नहीं, और यह विद्यमान काम-भोगों का आनन्द तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।

(१८०)

‘वर्तमान काल के काम-भोग हाथ में हैं—पूर्णतया स्वाधीन हैं । भविष्यकाल में परलोक के सुखों का क्या ठिकाना—मिलें या न मिलें ? और यह भी कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं ।’

(१८१)

‘मैं तो सामान्य लोगों के साथ रहूँगा—अर्थात् जैसी उनकी दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायगी’—मूर्ख मनुष्य इस प्रकार धृष्टता-भरी बातें किया करते हैं और काम-भोगों की आसक्ति के कारण अन्त में महान् क्लेश पाते हैं ।

(१८२)

तत्रो से दंडं समारभई, तसेसु थावरेसु य ।
अट्टाए य अणट्टाए, भूयगामं विहिंसई ॥५॥

(१८३)

हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सढे ।
भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नंई ॥६॥

(१८४)

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।
दुहत्रो मलं संचिणइ, सिसुनागु व्व मट्टियं ॥७॥

(१८५)

तत्रो पुट्टो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पइ ।
पभीत्रो परलोगस्स, कम्माणुप्पेही अप्पणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ६-११]

(१८६)

जे केइ बाला इह जीवियट्ठी,
पावाइं कम्माइं करेन्ति रुद्धा ।

ते घोररूवे तमसिन्धयारे,
तिव्वाभितावे नरगे पडन्ति ॥९॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ३]

(१८२)

मूर्ख मनुष्य विषयासक्त होते ही त्रस तथा स्थावर जीवों को सताना शुरू कर देता है, और अन्त तक मतलब बेमतलब प्राणि-समूह की हिंसा करता रहता है ।

(१८३)

मूर्ख मनुष्य हिंसक, असत्य-भाषी, मायावी, चुगलखोर और धूर्त होता है । वह मांस-मद्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय समझता है ।

(१८४)

जो मनुष्य शरीर तथा वचन के बल पर मदान्ध है, धन तथा स्त्री आदि में आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनों द्वारा वैसे ही कर्म का संचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का ।

(१८५)

पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिम समय में असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, तब वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही-अन्दर पछताता है और अपने पूर्वकृत पाप-कर्मों की याद कर-कर के परलोक की विभीषिका से कांप उठता है ।

(१८६)

जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के क्रिये निर्दय होकर पाप-कर्म करते हैं, वे महाभयंकर प्रगाढ़ अन्धकाराच्छन्न एवं तीव्र तापवाले तमिस्र नरक में जाकर पड़ते हैं ।

(१८७)

जया य चयइ धम्मं, अणज्जो भोगकारणा ।
से तत्थ मुच्छिए वाले, आयइं नावबुज्झई ॥१०॥

[दश० चूलिका १ गा० १]

(१८८)

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्ताकम्मेहिं दुम्मई ।
तारिसो मरणंउते वि, नाऽऽराहेइ संवरं ॥११॥

[दश० अ० १ उ० २ गा० ३६]

(१८९)

जे केइ पव्वइए, निदासीले पगामसो ।
भोच्चा पिच्चा सुहं सुवइ, पावसमणिं ति वुच्चइ ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १७ गा० ३]

(१९०)

वेराइं कुव्वइ वेरी, तओ वेरेहिं रज्जइ ।
पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥१३॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० ७]

(१९१)

मासे मासे तु जो वाले, कुसग्गेणं तु भुंजए ।
न सो सुयक्खोयधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं ॥१४

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४४]

(१८७)

जब अनार्य मनुष्य काम-भोगों के लिये धर्म को छोड़ता है तब भोग-विज्ञास में मूर्च्छित रहनेवाला वह मूर्ख अपने भयंकर भविष्य को नहीं जानता ।

(१८८)

जिस तरह हमेशा भयभ्रान्त रहने वाला चोर अपने ही दुष्कर्मों के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य अपने दुराचरणों के कारण दुःख पाता है और अन्तकाल में भी संवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

(१८९)

जो भिक्षु प्रव्रज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप श्रमण' कहलाता है ।

(१९०)

वैर रखने वाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर में ही आनन्द पाता है । हिंसा-कर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचाने वाले हैं ।

(१९१)

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीने भर का घोर तप करे और पारणा के दिन केवल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सत्पुरुषों के बताये धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सोलहवें हिस्से को भी नहीं पहुँच सकता ।

(१६२)

इह जीवियं अनियमित्ता, पबभट्टा समाहि-जोगेहिं ।

ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १४]

(१६३)

जावन्तऽविज्जापुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१६॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १]

(१६४)

बालाणं अकामं तु मरणं असइं भवे ।

पंडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण सइं भवे ॥१७॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ३]

(१६५)

बालस्स पस्स बालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया ।

चिच्चा धम्मं अहम्मिट्ठे, नरए उववज्जइ ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ७ गा० २८]

(१६६)

धीरस्स पस्स धीरत्तं सच्चधम्माणुवत्तिणो ।

चिच्च अधम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जइ ॥१९॥

(१६२)

जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छंखल) रखने के कारण समाधि-योग से भ्रष्ट हो जाते हैं वे काम-भोगों में आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं ।

(१६३)

संसार के सब अविद्वान् (मूर्ख) पुरुष दुःख भोगने वाले हैं । मूढ प्राणी अनंत संसार में बार बार लुप्त होते रहते हैं—जन्मते और मरते रहते हैं ।

(१६४)

मूर्ख जीवों का संसार में बार बार अकाम-मरण हुआ करता है; परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण एक बार ही होता है—उनका पुनर्जन्म नहीं होता ।

(१६५)

मूर्ख मनुष्य की मूर्खता तो देखो, जो धर्म छोड़कर, अधर्म को स्वीकार कर अधार्मिक हो जाता है, और अन्त में नरक-गति को प्राप्त होता है ।

(१६६)

सत्य-धर्म के अनुगामी धीर पुरुष की धीरता देखो, जो अधर्म का परित्याग कर धार्मिक हो जाता है, और अन्त में देव-लोक में उत्पन्न होता है ।

(१६७)

तुलियाण बालभावं, अबालं चैव पण्डिए ।

चइऊण बालभावं, अबालं सेवई मुणो ॥२०॥

[उत्तरा० अ० गा० २६-३०]

(१६७)

विद्वान् मुनि को बाल-भाव और अबाल-भाव का तुलनात्मक विचार कर बाल-भाव छोड़ देना चाहिये और अबाल-भाव ही स्वीकार करना चाहिये ।

: १७ :

पंडिय-सुत्तं

(१६८)

समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपहे बहू ।
अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥१॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० २]

(१६९)

जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्ठीकुव्वई ।
साहीणे चयइ भाए, से हू चाइ त्ति वुच्चई ॥२॥

[दश० अ० २ गा० ३]

(२००)

वत्थगन्धमलंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ।
अच्छन्दा जे न भुंजन्ति, न से चाइ त्ति वुच्चई ॥३॥

[दश० अ० २ गा० २]

(२०१)

डहरे य पाणे वुद्धे य पाणे,
ते अत्तओ पासइ सव्वलोए ।
उव्वेहई लोगमिणं महन्तं,
बुद्धो पमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥४॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १२ गा० १८]

: १७ :

परिडत-सूत्र

(१६८)

परिडत पुष्प को संसार-भ्रमण के कारणरूप दुष्कर्म-पाशों का भली भांति विचार कर अपने आप स्वतन्त्ररूप से सत्य की खोज करना चाहिये, और सब जीवों पर मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

(१६९)

जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी पीठ फेर लेता है, सब प्रकार से स्वाधीन भोगों का परित्याग कर देता है, वही सच्चा त्यागी कहलाता है ।

(२००)

जो मनुष्य किसी परतन्त्रता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार, स्त्री और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह सच्चा त्यागी नहीं कहलाता ।

(२०१)

जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा में सोते रहने वाले मनुष्यों के बीच रहकर संसार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, इस महान् विश्व का निरीक्षण करता है, सर्वदा अप्रमत्त भाव से संयमाचरण में रत रहता है वही मोक्षगति का सच्चा अधिकारी है ।

(२०२)

जे ममाइअमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।
से हु दिट्ठमए मुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥ ५ ॥

[आचा० १ श्रु० अ० २ उ० ६ सू० ६६]

(२०३)

जहा कुम्मे सअंग्गाडं, सए देहे समाहरे ।
एवं पावाइं मेहावी, अज्जम्पेण समाहरे ॥ ६ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० १६]

(२०४)

जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए ।
तस्स वि संजमो सेयो अदिन्तस्स वि किंचण ॥ ७ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४०]

(२०५)

नाणस्स संव्वस्स पगासणाय,
अन्नाणमोहस्स विवज्जणए ।
रागस्स दोसस्स य संखणं,
एगन्तसोक्खं समुवेइ मोक्खं ॥ ८ ॥

(२०६)

तस्सेस मगो गुरुविद्धसेवा,
विवज्जणा वालजणस्स दूरा ।
सज्जायएगन्तनिसेवणा य,
मुत्तत्थसंचिन्तणया धिई य ॥ ९ ॥

(२०२)

जो ममत्व-बुद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग करता है । वास्तव में वही संसार से सच्चा भय खाने वाला मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है ।

(२०३)

जैसे कछुआ आपत्ति से बचने के लिये अपने अंगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पंडितजन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियाँ आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रखें ।

(२०४)

जो मनुष्य प्रतिमास लाखों गायें दान में देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी न देने वाले का संयमाचरण श्रेष्ठ है ।

(२०५)

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से, तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकांत सुखस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२०६)

सद्गुरु तथा अनुभवी बृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, और चित्त में धृतिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है ।

(२०७)

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं,
 सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोगं,
 समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ १० ॥

(२०८)

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
 गुणाहियं वा गुणत्तो समं वा ।
 एक्को वि पावाइं विवज्जयन्तो,
 विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ ११ ॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० २-५]

(२०९)

जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास,
 भूएहिं सायं पडिलेह जाणे ।
 तम्हाइविज्जो परमं ति नच्चा,
 सम्मत्तदंसी न करेइ पावं ॥ १२ ॥

[आचा० श्रु० १ अ० ३ उ० २ गा० १]

(२१०)

न कम्मणा कम्म खवेन्ति बाला,
 अकम्मणा कम्म खवेन्ति धीरा ।
 मेहाविणो लोभ-भया वर्इया,
 संतोसिणो न पकरेन्ति पावं ॥ १३ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० १२ गा० १५]

(२०७)

समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वो श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण-बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे, और ध्यान करने योग्य एकान्त स्थान में निवास करे ।

(२०८)

वाँद अपने से गुणों में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, तो पापकर्मों का परित्याग कर तथा काम भोगों में सर्वथा अनासक्त रहकर अकेला हो विचरे । परन्तु दुराचारी का कभी भूल कर भी संग न करे ।

(२०९)

संसार में जन्म-मरण के महान् दुःखों को देखकर और यह अच्छी तरह जानकर कि—‘सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हैं’ अहिंसा को मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्वधारी विद्वान् कभी भी पाप कर्म नहीं करते ।

(२१०)

मूर्ख साधक कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, किन्तु पाप-कर्मों से पाप-कर्मों को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान् साधक वे हैं जो पाप-कर्मों के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हैं । अतएव लोभ और भय से रहित सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले मेधावी पुरुष किसी भी प्रकार का पाप-कर्म नहीं करते ।

: १८ :

अप्प-सुत्तं

(२११)

अप्पा नई वेयवणी, अप्पा मे कूडसामलो ।

अप्पा कामदुहा वेणू, अप्पा मे नन्दनं वणं ॥ १ ॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

(२१२)

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुप्पट्टिओ ॥ २ ॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ३७]

(२१३)

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ३ ॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १५]

(२१४)

वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य ।

माऽहं परेहिं दम्मन्तो, बन्धणेहिं वहेहि य ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १६]

: १८ :

आत्म-सूत्र

(२११)

आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शाल्मली बृक्ष है । आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा धेनु तथा नन्दन-वन है ।

(२१२)

आत्मा ही अपने दुःखों और सुखों का कर्ता तथा भेक्ता है । अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु है ।

(२१३)

अपने-आपको ही दमन करना चाहिये । वास्तव में यह कठिन है । अपने-आपको दमन करनेवाला इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है ।

(२१४)

दूसरे लोग मेरा वध बन्धनादि से दमन करें, इसकी अपेक्षा तो मैं संयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन करूँ, यह अच्छा है ।

(२१५)

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुब्जए जियो ।
एगं जियोब्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥५॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३४]

(२१६)

अप्पाणमेव जुब्भाहि किं ते जुब्भेण बज्भओ ? ।
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥६॥

(२१७)

पंचिन्दियाणि कोहे. माणं मायं तद्देव लोहं च ।
दुब्जयं चेव अप्पाणं, सव्वमप्पे जिए जियं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३५-३६]

(२१८)

न तं अरी कंठ-छेत्ता करेइ,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ४८]

(२१९)

जस्सेवमप्पा उ हवेब्ज निच्छिओ,
चइब्ज देहं न हु धम्मसासणं ।

(२१५)

जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले, तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी ।

(२१६)

अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये, बाहरो स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है ।

(२१७)

पाँच इन्द्रियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिये । एक आत्मा के जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है ।

(२१८)

सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है । दयाशून्य दुराचारी को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता; परन्तु जब वह मृत्यु के मुख में पहुँचता है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है ।

(२१९)

जिस साधक की आत्मा इस प्रकार दृढ़निश्चयी हो कि 'मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना धर्म-शासन छोड़ ही नहीं सकता;

तं तारिसं नो पयालेन्ति इन्दिया,
उवेन्ति वाया व सुदंसणं गिरिं ॥६॥

[दश० चूलिका १ गा० १७]

(२२०)

अप्पा खलु सययं रक्खियव्वो,
सव्विन्दिएहिं सुसमाहिण्हिं ।

अरक्खिओ जाइपहं उवेइ,

सुरक्खिओ सव्वदुक्खाण मुच्चइ ॥१०॥

[दश० चूलिका २ गा० १६]

(२२१)

सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो वुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥११॥

[उत्तरा० अ० २३ गा० ७३]

(२२२)

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,

सम्मं च नो फासयई पमाया ।

अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,

न मूलओ छिन्दइ बन्धणं से ॥१२॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

उसे इन्द्रियाँ कभी विचलित नहीं कर सकतीं, जैसे—भीषण बवंडर सुमेरु पर्वत को ।

(२२०)

समस्त इन्द्रियों को खूब अच्छी तरह समाहित करते हुये पापों से अपनी आत्मा की निरंतर रक्षा करते रहना चाहिये । पापों से अरक्षित आत्मा संसार में भटका करती है, और सुरक्षित आत्मा संसार के सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

(२२१)

शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और संसार को समुद्र बतलाया है । इसी संसार-समुद्र को महर्षिजन पार करते हैं ।

(२२२)

जो प्रव्रजित होकर प्रमाद के कारण पांच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन नहीं करता, अपने-आपको निग्रह में नहीं रखता, काम-भोगों के रस में आसक्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के बन्धन को जड़ से नहीं काट सकता ।

: १६ :

लोगतत्त-सुत्तं

(२२३)

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल जंतवो ।
एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिरोहिं वरदंसिहिं ॥१॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ७]

(२२४)

गइलक्खणो धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।
भायणं सव्वदव्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥२॥

(२२५)

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।
नारोणं दंसरोणं च, सुहेण य दुहेण य ॥३॥

(२२६)

नाणं च दंसणं चैव, चरितं च तवो तथा ।
वीरियं उवओगो य, एयं जावस्स लक्खणं ॥४॥

(२२७)

सहं ऽधयार-उज्जोओ, पहा छाया ऽऽतवे इ वा ।
वरण-रस गन्ध-फासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥५॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ६-१२]

लोकतत्त्व-सूत्र

(२२३)

धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—ये छह द्रव्य हैं। केवलदर्शन के धर्ता जिन भगवानों ने इन सबको लोक कहा है।

(२२४)

धर्मद्रव्य का लक्षण गति है; अधर्मद्रव्य का लक्षण स्थिति है; सब पदार्थों को अवकाश देना—आकाश का लक्षण है।

(२२५)

काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण है। जीवात्मा ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, तथा दुःख से जाना-पहचाना जाता है।

(२२६)

अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं।

(२२७)

शब्द, अन्धकार, उजाला, प्रभा, छाया, आतप (धूप), वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श—ये सब पुद्गल के लक्षण हैं।

(२२८)

जीवाऽजीवा य बन्धो य पुण्यं पावाऽसर्वो तथा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥६॥

(२२९)

तहियाणं तु भावाणं, सबभावे उवएसणं ।
भावेणं सहहन्तस्स, सम्मत्तां तं वियाहियं ॥७॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० १४-१५]

(२३०)

नाणेण जाणइ भावे, दंसणेणं य सहहे ।
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥८॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३५]

(२३१)

नाण च दंसणं चैवं, चरित्तं च तयो तथा ।
एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुग्गइं ॥९॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३]

(२३२)

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिवोहियं ।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥ १० ॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ४]

(२३३-२३४)

नाणस्सावरणिज्जं. दंसणावरणं तथा ।
वेयणिज्जं तथा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥ ११ ॥
नामकम्मं च गोत्तं च, अन्तरायं तहेव य ।
एवमेयाइं कम्माइं, अट्ठेव उ समासओ ॥ १२ ॥
[उत्तरा० अ० ३३ गा० २-३]

(२२८)

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा और मौक्ष—ये नव सत्य-तत्त्व हैं ।

(२२९)

जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व में सद्गुरु के उपदेश से, अथवा स्वयं ही अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहा गया है ।

(२३०)

मुमुक्षु आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाओं का निग्रह करता है, और तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ।

(२३१)

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इस चतुष्टय अध्यात्ममार्ग को प्राप्त होकर मुमुक्षु जीव मोक्षरूप सद्गति पाते हैं ।

(२३२)

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल—इस भाँति ज्ञान पाँच प्रकार का है ।

(२३३-२३४)

,ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय—इस प्रकार संक्षेप में ये आठ कर्म बतलाये हैं ।

(२३५)

सो तवो दुविहो वुत्तो वाहिरब्भन्तरो तहा ।
वाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमब्भन्तरो तवो ॥१३॥

(२३६)

अणसणमूणोयरिया, भिक्खायरिया रसपरिञ्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य, वज्झो तवो होई ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ३० गा० ७-८]

(२३७)

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भाणं च विउस्सगो, एसो अब्भन्तरो तवो ॥१५॥

[उत्तरा० अ० ३० गा० ३०]

(२३८)

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य छट्ठा, नामाईं तु जहक्कमं ॥१६॥

[उत्तरा० अ० ३४ गा० ३]

(२३९)

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गईं उववज्जइ ॥१७॥

(२४०)

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गईं उववज्जइ ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ३४ गा० ५६-५७]

(२३५)

तप दो प्रकार का बतलाया गया है—बाह्य और अभ्यन्तर ।
बाह्य तप छह प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अभ्यन्तर तप
भी छह प्रकार का है ।

(२३६)

अनशन, ऊनेदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय-क्लेश
और संलेखना—ये बाह्य तप हैं ।

(२३७)

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग
—ये अभ्यन्तर तप हैं ।

(२३८)

कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल—ये लेश्याओं
के क्रमशः छह नाम हैं ।

(२३९)

कृष्ण, नील, कापोत—ये तीन अधर्म-लेश्याएं हैं । इन
तीनों से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

(२४०)

तेज, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म-लेश्याएं हैं । इन तीनों
से युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है ।

(२४१)

अट्ट पवयणमायाओ. समिई गुत्ती तहेव य ।
पंचैव य समिईओ, तओ गुत्तीओ आहिया ॥१६॥

(२४२)

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिई इय ।
मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥२०॥

[उत्तरा० अ० २४ गा० १-२]

(२४३)

एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।
गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सव्वसो ॥२१॥

(२४४)

एसा पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी ।
से खिण्णं सव्वसंसारा, विण्णमुच्चइ पंडिए ॥२२॥

[उत्तरा० अ० २४ गा० २६-२७]

(२४१)

पाँच समिति और तीन गुप्ति—इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएं कहलाती हैं ।

(२४२)

ईर्या, भाषा, एपणा, आदान-निक्षेप और उच्चार-ये पाँच समितियाँ हैं । तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हैं ।

(२४३)

पाँच समितियाँ चारित्र की दया आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं और तीन गुप्तियाँ सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त होने में सहायक होती हैं ।

(२४४)

जो विद्वान् मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

: २० :

पुज्ज-सुत्तं

(२४५)

आयारमट्ठा विण्णं पउंजे,
सुस्सूसमाणो परिगिज्ज वक्कं
जहोवइट्ठं अभिकंखमाणो,
गुरुं तु नासाययई स पुज्जो ॥१॥

(२४६)

अन्नायउंछं चरइ विसुद्धं,
जवणट्ठया समुयाणं च निच्चं ।
अलद्धुयं नो परिदेवएज्जा,
लद्धुं न विकत्थई स पुज्जो ॥२॥

(२४७)

संथारसेज्जासणभत्तपाणे,
अप्पिच्छया अइलाभे वि सन्ते ।
जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा,
संतोसपाहन्नरणं स पुज्जो ॥३॥

पूज्य-सूत्र

(२४५)

जो आचार-प्राप्ति के लिये विनय का प्रयोग करता है, जो भक्तिपूर्वक गुरु-वचनों को सुनता है एवं स्वीकृत कर वचनानुसार कार्य पूरा करता है, जो गुरु की कभी अशातना नहीं करता वही पूज्य है ।

(२४६)

जो केवल संयम-यात्रा के निर्वाह के लिये अपरिचितभाव से दोष-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो आहार आदि न मिलने पर भी खिन्न नहीं होता और मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होता वही पूज्य है ।

(२४७)

जो संस्कारक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा ग्रहण करता है, सन्तोष की प्रधानता में रत होकर अपने-आपको सदा संतुष्ट बनाये रखता है, वही पूज्य है ।

(२४८)

सक्का सहेउं आसाइ कंटया,
 अओमया उच्छहया नरेण ।
 अणासए जो उ सहेज्ज कंटए,
 वईमए कएणसरें स पुज्जो ॥४॥

(२४९)

समावयन्ता वयणाभिघाया,
 कएणं गया दुम्मणियं जणन्ति ।
 धम्मो त्ति किच्चा परमगासूरे,
 जिइन्दिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥

(२५०)

अवएणवायं च परंमुहस्स,
 पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।
 ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च,
 भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥

(२५१)

अलोलुए अक्कुहए अमाई,
 अपिसुणे या वि अदीणवित्ती ।
 नो भावए नो वि य भावियप्पा,
 अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥७॥

(२४८)

संसार में लोभी मनुष्य किसी विशेष आशा की पूर्ति के लिये लौह-कंटक भी सहन कर लेते हैं, परन्तु जो बिना किसी आशा-तृष्णा के कानों में तीर के समान चुभने वाले दुर्वचन-रूपी कंटकों को सहन करता है, वही पूज्य है ।

(२४९)

विरोधियों की ओर से पड़नेवाली दुर्वचन की चोटों कानों में पहुँचकर बड़ी मर्मान्तक पीड़ा पैदा करती हैं; परन्तु जो क्षमाशूर जितेन्द्रिय पुरुष उन चोटों को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन कर लेता है, वही पूज्य है ।

(२५०)

जो परेक्ष में किसी की निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह-वर्धक अंत-संत बातें नहीं बकता, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली एवं निश्चयकारी भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है ।

(२५१)

जो रसलोलुप नहीं है, इन्द्रजाली (जादू-टोना करनेवाला) नहीं है, मायावी नहीं है, चुगलखोर नहीं है, दीन नहीं है, दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखता, स्वयं भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करता, खेल-तमाशे आदि देखने का भी शौर्कन नहीं है, वही पूज्य है ।

(२५२)

गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू,
 गिण्हाहि साहू गुण मुञ्चऽसाहू ।
 वियाणिया अप्पगमप्पएणं,
 जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो ॥८॥

(२५३)

तहेव डहरं च महल्लगं वा,
 इत्थी पुमं पव्वइयं गिहिं वा ।
 नो हीलए नो विय खिसएज्जा,
 थंभं च कोहं च चए स पुज्जो ॥९॥

(२५४)

तेसिं गुरूणं गुणसायराणं,
 सोच्चएण मेहावी सुभासियाइं ।
 चरे मुणी पंचरए तिगुत्तो,
 चउक्कसायावगए स पुज्जो ॥१०॥

[दश० अ० ६ उ० ३ गा० २-४-५-६-८-९-
 १०-११-१२-१४]

(२५२)

गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु, अतः हे मुमुक्षु ! सद्गुणों को ग्रहण कर और दुर्गुणों को छोड़ । जो साधक अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूपको पहचान कर राग और द्वेष दोनों में समभाव रखता है, वही पूज्य है ।

(२५३)

जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसी का भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध और अभिमान का पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है ।

(२५४)

जो बुद्धिमान् मुनि सद्गुण-सिन्धु गुहजनों के सुभाषितों को सुनकर तदनुसार पाँच महाव्रतों में रत होता है, तीन गुप्तियाँ धारण करता है, और चार कपायों से दूर रहता है, वही पूज्य है ।

: २१ :

माहण-सुत्तं

(२५५)

जो न सज्जइ आगन्तुं, पव्वयन्तो न सोयई ।
रमइ अज्जवयणम्मि, तं वयं बूम माहणं ॥१॥

(२५६)

जायरूवं जहामट्टं, निद्वन्तमल-पावणं ।
राग-दोस-भयाईयं, तं वयं बूम माहणं ॥२॥

(२५७)

तवस्सियं किसं दन्तं, अवचियमंससोणियं ।
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं बूम माहणं ॥३॥

(२५८)

तसपाणे वियाणित्ता, संगहेण य थावरे ।
जो न हिंसइ तिविहेणं, तं वयं बूम माहणं ॥४॥

: २१ :

ब्राह्मण-सूत्र

(२५५)

जो आनेवाले स्नेही—जनों में आसक्ति नहीं रखता, जो जाता हुआ शोक नहीं करता, जो आर्य-वचनों में सदा आनन्द पाता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५६)

जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए और कसौटी पर कसे हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५७)

जो तपस्वी है, जो दुबला—पतला है, जो इंद्रिय—निग्रही है, उग्र तपःसाधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, जो शुद्धव्रती है, त्रिमने निर्वाण (आत्म—शान्ति) पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५८)

जो स्थावर, जंगम सभी प्राणियों को भलीभाँति जानकर, उनकी तीनों ही प्रकार *से कभी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

*मन, वाणी और शरीर से; अथवा करने, कराने और अनुमोदन से ।

(२५६)

कोहा वा जइ हासा, लोहा वा जइ वा भया ।
मुसं न वयई जो उ, तं वयं बूम माहणं ॥५॥

(२६०)

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।
न गिणहाइ अदत्तं जे, तं वयं बूम माहणं ॥६॥

(२६१)

दिब्ब-माणुस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।
मणसा काय-ववकेणं, तं वयं बूम माहणं ॥७॥

(२६२)

जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।
एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं बूम माहणं ॥८॥

(२६३)

अलोलुयं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।
असंसत्तं गिहत्येसु, तं वयं बूम माहणं ॥९॥

(२५६)

जो क्रोध से, हास्य से, लोभ अथवा भय से—किसी भी मलिन संकल्प से असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६०)

जो सच्चित्त या अच्चित्त कोई भी पदार्थ—भले ही वह थोड़ा हो या अधिक,—मालिक के सहर्ष दिये बिना चोरी से नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६१)

जो देवता, मनुष्य तथा तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन का मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६२)

जिस प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो संसार में रहकर भी काम-भोगों से सर्वथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६३)

जो अलोलुप है, जो अनासक्त-जीवी है, जो अनगार (बिना घरबार का) है, जो अकिञ्चन है, जो गृहस्थों से अलिप्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६४)

जहिन्ता पुव्व-संजोगं, नाइसंगे य बन्धवे ।
जो न सज्जइ भोगेसु, तं वयं वूम माहणं ॥१०॥

(२६५)

न वि मुंढिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो ।
न मुणी रणणवासेणं, कुसचीरेण ण तावसो ॥११॥

(२६६)

समयाए समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो ।
नारोण मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१२॥

(२६७)

कम्मुणा बंभणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।
वइसो कम्मुणा होइ, सुदो हवइ कम्मुणा ॥१३॥

(२६८)

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।
ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥१४॥

[उत्तरा० अ० २५ गा० २० से २६, ३१-३२-३३-३५]

(२६४)

जो स्त्री-पुत्र आदि का स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों को, जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनों को एक बार त्याग देने पर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, पुनः काम-भोगों में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६५)

सिर मुँडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, 'ओम्' का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और न कुशा के बने वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी ही हो सकता है ।

(२६६)

समता से श्रमण होता है; ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है; ज्ञान से मुनि होता है; और तप से तपस्वी बना जाता है ।

(२६७)

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और शूद्र भी अपने किए गए कर्मों से ही होता है । (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँच या नीच हो जाता है ।)

(२६८)

इस भांति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजेत्तम [श्रेष्ठ ब्राह्मण] हैं, वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ हैं ।

: २२ :

भिक्षु-सुत्तं

(२६६)

रोड्श्च नायपुत्त-वयणे,
अप्पसमे भन्नेज्ज छ् प्पि काए ।
पंच य फासे महव्वयाइं,
पंचासवसंवरे जे स भिक्षू ॥१॥

(२७०)

चत्तारि वमे सया कसाए,
धुवजोगी य हविज्ज बुद्धवयणे ।
अहणे निज्जायरूव-रयए,
गिदिजोगं परिवज्जए जे स भिक्षू ॥२॥

(२७१)

सम्मदिट्ठी सया अमूढे,
अत्थि हु नाणे तव-संजमे य ।
तवसा धुणइ पुराण पावगं,
मण-वथ-कायसुसंबुडे जे स भिक्षू ॥३॥

भिक्षु-सत्र

(२६६)

जो ज्ञातपुत्र—भगवान् महावैर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर
उह काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिंसा
आदि पाँच महाव्रतों का पूर्णरूप से पालन करता है, जो पाँच आस्त्रों
का संवरण अर्थात् निरोध करता है, वही भिक्षु है ।

(२७)

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कृपायों का
परित्याग करता है, जो ज्ञानी पुरुषों के वचनों का दृढ़विश्वासी
रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं
रखता, जो गृहस्थों के साथ कोई भी सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध नहीं
जोड़ता, वही भिक्षु है ।

(२७?)

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्तव्य-विमूढ़ नहीं है, जो ज्ञान, तप
और संयम का दृढ़ श्रद्धालु है, जो मन, वचन और शरीर को
पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत
पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ।

(२७२)

न य वुग्गहियं कहां कहिज्जा,
 न य कुप्पे निहुइन्दिए पसन्ते ।
 संजमधुवजोगजुत्ते,
 उवसंते अविहेडए जे स भिक्खू ॥४॥

(२७३)

जो सहइ हु गामकंटए,
 अक्कोस--पहार--तज्जणाओ य ।
 भय--भेरव--सह--सप्पहासे,
 समसुह--दुक्खसहे जे स भिक्खू ॥५॥

(२७४)

अभिभूय काएण परिसहाइं,
 समुद्धरे जाइपहाउ अप्पयं ।
 विइत्तु जाई--मरणं महब्भयं,
 तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥६॥

(२७५)

हत्थसंजए पायसंजए,
 वायसंजए संजइन्दिए ।

(२७२)

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अचंचल हैं, जो प्रशान्त है, जो संयम में ध्रुवयोगी (सर्वथा तल्लीन) रहता है, जो संकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिन्न है।

(२७३)

जो कान में कांटे के समान चुभनेवाले आक्रोश-वचनों को, प्रहारों को, तथा अयोग्य उपालंभों को शान्तिपूर्वक सह लेता है, जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को समभावपूर्वक सहन करता है, वही भिन्न है।

(२७४)

जो शरीर से परीपहों को धैर्य के साथ सहन कर संसार-गर्त से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयंकर जानकर सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिन्न है।

(२७५)

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है, जो सदा अध्यात्म-चिंतन में रत रहता है, जो अपने आपको

अज्भपरए सुसमाहिअप्पा,
सुत्तत्थं च वियाणइ जे स भिक्खू ॥७॥

(२७६)

उवहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे,
अन्नायउंछं, पुलनिप्पुलाए ।
कयविककयसन्निहिओ विरए,
सव्वसंगावगए य जे स भिक्खू ॥८॥

(२७७)

अलोल भिक्खू न रसेसु गिद्धे,
उंछं चरे जीविय नाभिकखे ।
इडिंढ च सक्कारण-पूयणं च,
चए ठियप्पा अण्णिहे जे स भिक्खू ॥९॥

(२७८)

न परं वइज्जासि अयं कुसीले,
जेणं च कुप्पेज्ज न तं वएज्जा ।
जाणिय पत्तेयं पुण्ण--पावं,
अन्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्खू ॥१०॥

भली भाँति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ को पूरा जाननेवाला है, वही भिन्नु है ।

(२७६)

जो अपने संयम-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा (आसक्ति) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिक्षा माँगता है, जो संयम-पथ में बाधक होनेवाले दोषों से दूर रहता है, जो खरीदने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धन्धों के फेर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिन्नु है ।

(२७७)

जो मुनि अलोलुप है, जो रसों में अगृह्य है, जो अज्ञात कुल की भिक्षा करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धि, सत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है, वही भिन्नु है ।

(२७८)

जो दूसरों को 'यह दुराचारी है' ऐसा नहीं कहता, जो कटु वचन—जिससे सुननेवाला लुब्ध हो—नहीं बोलता, 'सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं।' —ऐसा जानकर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आपको उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिन्नु है ।

(२७६)

न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,
 न लाभमत्ते न सुएण मन्ते ।
 मयाणि सव्वाणि विवज्जयंतो,
 धम्मज्जाणए जे स भिक्खू ॥११॥

(२८०)

पवेयए अज्जपयं महामुणी,
 धम्मे ठिओ ठावयई परं पि ।
 निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीललिंणं,
 न यावि हासंकुहए जे स भिक्खू ॥१२॥

(२८१)

तं देहवासं असुई असासयं,
 सया चए निच्चहियट्ठियप्पा ।
 छिंदित्तु जाईमरणास्स बंधणं ।
 उवेइ भिक्खू अपुणागमं गडं ॥१३॥

[दश० अ० १० गा० ५-६-७-१०-११,

१४ सै २१]

(२७६)

जो जाति का अभिमान नहीं करता; जो रूप का अभिमान नहीं करता; जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पांडित्य) का अभिमान नहीं करता; जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-ध्यान में ही रत रहता है; वही भिन्नु है।

(२८०)

जो महामुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश करता है; जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है; जो घर-गृहस्थी के प्रपंच से निकल कर सदा के लिये कुशील लिंग (निन्द्यवेश) को छोड़ देता है; जो किसी के साथ हँसी-ठट्टा नहीं करता; वही भिन्नु है।

(२८१)

इस भाँति अपने को सदैव कल्याण-पथ पर खड़ा रखनेवाला भिन्नु अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमेशा के लिये छोड़ देता है; जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काटकर अपुनरागमगति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।

: २३ :

मोक्षमग्न-सुत्तं

(२८२)

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे ? कहं सए ?
कहं भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धइ ? ॥१॥

(२८३)

जयं चरे जयं चिट्ठे जयमासे जयं सए ।
जयं भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बन्धइ ॥२॥

(२८४)

सव्वभूयणभूयस्स सम्मं भूयाइं पासओ ।
पिहियासवस्स दन्तस्स पावं कम्मं न बन्धइ ॥३॥

(२८५)

पढमं नाणं तओ दया एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।
अन्नाणी किं काही किंवा नाहिइ छेय-पवागं ? ॥४॥

: ३२ :

मोक्षमार्ग-सूत्र

(२८२)

भन्ते ! कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे सोये ? कैसे भोजन करे ? कैसे बोले ?—जिससे कि पाप-कर्म-का बन्ध न हो ।

(२८३)

आयुष्मन् ! विवेक से चले; विवेक से खड़ा हो; विवेक से बैठे; विवेक से सोये; विवेक से भोजन करे; और विवेक से ही बोले, तो पाप-कर्म नहीं बाँध सकता ।

(२८४)

जो सब जीवों को अपने समान समझता है, अपने-पराये, सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसने सब आस्रवों का निरोध कर लिया है, जो चंचल इन्द्रियों का दमन कर चुका है, उसे पाप-कर्म का बन्धन नहीं होता ।

(२८५)

पहले ज्ञान है, बाद में दया । इसी क्रम पर समग्र त्यागीवर्ग अपनी संयम-यात्रा के लिये ठहरा हुआ है । भला, अज्ञानी मनुष्य क्या करेगा ? श्रेय तथा पाप को वह कैसे जान सकेगा ?

(२८६)

सोचचा जाणइ कल्लाणं सोचचा जाणइ पावणं ।
उभयं पि जाणइ सोचचा, जं छेयं तं समायरे ॥५॥

(२८७)

जो जीवे वि न जाणइ, अजीवे वि न जाणइ ।
जीवाऽजीवे अण्णंतो कहं सो नाहीइ संजमं ? ॥६॥

(२८८)

जो जीवे वि वियाणइ, अजीवे वि वियाणइ ।
जीवाऽजीवे वियाणंतो, सो हु नाहीइ संजमं ॥७॥

(२८९)

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।
तया गइं बहुविहं, सब्वजीवाण जाणइ ॥८॥

(२९०)

जया गइं बहुविहं सब्वजीवाण जाणइ ।
तया पुण्णं च पावं च बंध मोक्खं च जाणइ ॥९॥

(२८६)

सुनकर ही कल्याण का मार्ग जाना जाता है । सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है । दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं । बुद्धिमान् साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने को जो श्रेय मालूम हो, उसका आचरण करे ।

(२८७)

जो न तो जीव (चेतनत्व) को जानता है, और न अजीव (जड़त्व) को जानता है, वह जीव-अजीव के स्वरूप को न जाननेवाला साधक, भला किस तरह संयम को जान सकेगा ?

(२८८)

जो जीव को जानता है और अजीव को भी वह जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जानने वाला साधक ही संयम को जान सकेगा ।

(२८९)

जब जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जान लेता है, तब वह सब जीवों की नानाविध गति (नरक तिर्थेच आदि) को भी जान लेता है ।

(२९०)

जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान लेता है, तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को भी जान लेता है ।

(२६१)

जया पुण्ण च पावं च बंधं मोक्खं च जाणइ ।
तया निर्व्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुमे ॥१०॥

(२६२)

जया निर्व्विदए भोए जे दिव्वे जे य माणुसे ।
तया चयइ संजोगं सच्चिभन्तरं वाहिरं ॥११॥

(२६३)

जया चयइ संजोगं सच्चिभन्तरं वाहिरं ।
तया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणुगारियं ॥१२॥

(२६४)

जया मुण्डे भवित्ताणं पव्वयइ अणुगारियं ।
तया संवरमुक्किट्ठं धम्मं फासे अणुत्तरं ॥१३॥

(२६५)

जया संवरमुक्किट्ठं धम्मं फासे अणुत्तरं ।
तया धुणइ कम्मरयं अबोहिकलुसं कडं ॥१४॥

(२६१)

जब (साधक) पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता और मनुष्य संबन्धी काम-भोगों की निगुणता जान लेता है—अर्थात् उनसे विरक्त हो जाता है !

(२६२)

जब देवता और मनुष्य संबन्धी समस्त काम-भोगों से (साधक) विरक्त हो जाता है, तब अन्दर और बाहर के सभी सांसारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है ।

(२६३)

जब अन्दर और बाहर के समस्त सांसारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है, तब मुण्डित (दीक्षित) होकर (साधक) पूर्णतया अनगार वृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

(२६४)

जब मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब (साधक) उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है

(२६५)

जब (साधक) उत्कृष्ट संवर एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को झाड़ देता है ।

(२६६)

जया धुइण कम्मरयं अत्रोहिक्लुसं कडं ।
तया सव्वत्तगं नाणं दंसणं चाभिगच्छइ ॥१५॥

(२६७)

जया सव्वत्तगं नाणं दंसणं चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥

(२६८)

जया लोगमलोगं च जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरुंभित्ता सेलेसिं पडिवज्जइ ॥१७॥

(२६९)

जया जोगे निरुंभित्ता सेलेसिं पडिवज्जइ ।
तया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥१८॥

(३००)

जया कम्मं खवित्ताणं सिद्धिं गच्छइ नीरओ ।
तया लोगमत्थयत्थो सिद्धो हवइ सासओ ॥१९॥

(२६६)

जब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को दूर कर देता है, तब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

(२६७)

जब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

(२६८)

जब केवलज्ञानी जिन लोक-अलोकरूप समस्त संसार को जान लेता है, तब (आयु समाप्ति पर) मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध कर शैलेशी (अचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है ।

(२६९)

जब मन, वचन और शरीर के योगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था पाती है—पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त होती है ।

(३००)

जब आत्मा सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मलरहित होकर सिद्धि को पा लेती है, तब लोक के—मस्तक पर—ऊपर के अग्र भागपर स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है ।

(३०१)

सुहसायनस्स समणस्स सायाउत्तमस्स निनामसाइस्स ।

उज्ज्वलाणपहायिस्स दुल्लहा सोगई तारिसगस्स ॥२०॥

(३०२)

तवोगुणपहाणस्स उज्जुमईखन्तिसंजमरयस्स ।

पेरीसहे जिणन्तस्स सुलहा सोगई तारिसगस्स ॥२१॥

[दश० अ० ४ गा० ७ से २७]

(३०१)

जो श्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भक्तिव्यकालिक सुख-साधनों के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, सुन्दरता के फेर में पड़कर हाथ, पैर, मुँह आदि धोने में लगा रहता है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी दुर्लभ है ।

(३०२)

जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, क्षमा और संयम में रत है, शांति के साथ लुभा आदि परीषदों को जीतनेवाला है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी सुलभ है ।

जातिमद-निवारण-सूत्र

[जैनसंघ में केवल जाति का कोई मूल्य नहीं, गुणों का ही मूल्य प्रधान है, अत एव जातिमद अर्थात् 'मैं अमुक उच्च जाति में जन्मा हूँ' या 'अमुक उच्च कुलमें व गोत्र में जन्मा हूँ' ऐसा कहकर जो मनुष्य अपनी जाति का, कुल का व गोत्र का अभिमान करता है और इसी अभिमान के कारण दूसरों का अपमान करता है और दूसरों को नाचीज समझता है उसको मूर्ख, मूढ, अज्ञानी कह कर खूब फटकारा गया है और जातिमद, कुलमद, गोत्रमद, ज्ञानमद, तपमद तथा धनमद आदि अनेक प्रकार के मदों को सर्वथा त्याग करने को जैन शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। इससे यह सुनिश्चित है कि जैनसंघ में या जैनप्रवचन में कोई भी मनुष्य जाति कुल व गोत्र के कारण नीचा-ऊँचा नहीं है अथवा तिरस्कार-पात्र नहीं है और अस्पृश्य भी नहीं है। अतः इस सूत्र का नाम अस्पृश्यता-निवारण सूत्र भी रखें तो भी उचित ही है]

(३०३)

एगमेगे खलु जीवे अईअद्धाए असइं उच्चागोए,
असइं नीयागोए । x x x

नो हीणे, नो अइरित्ते, इति संखाए के गोयावाई के
माणावाई ? कंसि वा एगे गिज्जे ? तम्हा पंडिए नो हरिसे
नों कुज्जे ।

भूएहिं जाण पडिलेह सायं समिए एयाणुपस्सी ।

[आचारांग सूत्र, द्वि० अध्ययन, उद्देशक वृ०, सूत्र १-२-३]

जातिमद-निवारण सूत्र

(३-३)

यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक जीव भूतकाल में यानी अपने पूर्व-जन्मों में अनेक बार ऊँचे गोत्र में जन्मा है और अनेक बार नीचे गोत्र में जनमा है ।

केवल इसी कारण से वह न हीन है और न उत्तम। इस प्रकार समझ कर ऐसा कौन होगा जो गोत्रवाद का अभिमान रखेगा व मानवाद को बड़ाई करेगा ? ऐसी परिस्थिति में किस एकमें आसक्ति की जाय ? अर्थात् गोत्र या जाति के कारण कोई भी मनुष्य आसक्ति करने योग्य नहीं है, इसी लिये समझदार मनुष्य जाति या गोत्र के कारण किसी पर प्रसन्न नहीं होता और कोप भी नहीं करता ।

समझ-बूझ कर, सोच-विचार कर सब प्राणियों के साथ सहानु-भूति से वर्तना चाहिए और ऐसा समझने वाला ही समतायुक्त है ।

(३०४)

जे माहणे खत्तियजायए वा,
 तहुगपुत्ते तह लेच्छई वा ।
 जे पव्वइए परदत्तभोई,
 गोत्ते ण जे थच्छति माणवद्धे ॥

[सूत्रकृ० १, अ० १३, १०]

(३०५)

जे आवि अप्पं वसुमं ति मत्ता,
 संखायवायं अपरिक्ख कुज्जा ।
 तवेण वाऽहं सहिउ त्ति मत्ता,
 अण्णं जणं पस्सति विवभूयं ॥

[सूत्रकृ० १, अ० १३, ८]

(३०६)

न तस्स जाई व कुलं व ताणं,
 णण्णत्थ विज्जाचरणं सुच्चिण्णं ।
 णिक्खम्म से सेवइऽगारिकम्मं,
 ण से पारए होइ विमोयणाए ॥

(३०४)

जा ब्राह्मण है, क्षत्रियपुत्र है, तथा उग्रवंश की संतान है तथा लिच्छवी वंश की प्रजा है ऐसा जो भिक्षा से आजीवन रहने वाला भिक्षु है वह अभिमान में बंधकर अपने गोत्र का गर्व नहीं करता ।

(३०५)

जो अपने को घमंड से संयमयुक्त मानकर और अपनी बराबर परख न करके घमंड से अपने को ज्ञानी मान कर और मैं कठोर तप कर रहा हूँ ऐसा घमंड करके दूसरे मनुष्य को केवल ब्रीचा (सांचा) के समान समझता है अर्थात् तृणपुरुष के समान निकम्मा समझता है वह दुःशील है, मूढ़ है, मूर्ख है और बाल है ।

(३०६)

वैसे घमंडी की रक्षा उसकी कल्पित जाति से या कुल से नहीं हो सकती, केवल सत्का ज्ञान व सदाचरण ही रक्षा कर सकता है । ऐसा न समझकर जो त्यागी साधु होकर भी घमंड में चूर रहता है वह साधु नहीं है, गृहस्थ है—संसार में लिपटा हुआ है और ऐसा घमंडी मुक्ति के मार्ग का पारगामी नहीं हो सकता ।

(३०७)

शिक्किचणे भिक्खु सुलह्जीवी,
 जे गारवं होइ सलोगगामी ।
 आजीवमेयं तु अबुद्धमाणे,
 पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥

[सूत्रक० १, १३, गा० ११, १२]

(३०८)

पन्नामयं चैव तवोमयं च,
 शिन्नामए गोयमयं च भिक्खु ।
 आजीविगं चैव चउत्थमाहु,
 से पंडिए उत्तमपोग्गले से ॥

(३०९)

एयाइं मयाइं विगिंच धीरा !
 ण ताणि सेवंति सुधीरधम्मा ।
 ते सव्वगोत्तावगया महेसी,
 उच्चं अगोत्तं च गतिं वयंति ॥

[सूत्रक० १, १३ गा० १५, १६]

(३०७)

भिक्षु अकिंचन है, अपरिग्रही है और सुखा-सुखा जो पाता है उससे ही अपनी जीवनयात्रा निभाता है। ऐसा भिक्षु होकर जो अपनी आजीविका के लिये अपने उत्तम कुल, जाति व गोत्र का उपयोग करता है अर्थात् 'मैं तो अमुक उत्तम कुल का था, अमुक उत्तम घराने का था, अमुक ऊँचे गोत्र का था व अमुक विशिष्ट वंश का था' इस प्रकार अपनी बड़ाई करके जीवन-यात्रा चलाता है वह तत्त्व को न समझता हुआ बारंबार विपर्यास को पाता है।

(३०८)

जो भिक्षु-मानव-प्रज्ञा के मद को, तप के मद को, गोत्र के मद को तथा चौथे धन के मद को नमाता है अर्थात् छोड़ता है वह पंडित है, वह उत्तम आत्मा है।

(३०९)

हे धीर पुरुष ! इन मदों को काट दे-विशेषरूप से काट दे, सुधीर धर्मवाले मानव उन मदों का सेवन नहीं करते। ऐसे मदों को जड़से काटने वाले महर्षिजन सब गोत्रों से दूर होकर उस स्थान को पाते हैं जहाँ न जाति है, न गोत्र है और न वंश है। अर्थात् महर्षिजन ऐसी उत्तम गति पाते हैं।

खामणासुत्तं

(३१०)

सव्वस्स जीवरासिस्स भावञ्चो धम्मनिहिअनिअचित्तो ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥१॥

(३११)

सव्वस्स समणसंघस्स भगवञ्चो अंजलि करिअ सीसे ।
सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥२॥

(३१२)

आयरिए उवज्जाए सीसे साहम्मिए कुल-गणे य ।
जे मे केइ कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि ॥३॥

[पंचप्रति० आयरिअ० सू० ३-२-१]

(३१३)

खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मित्ती मे सव्वभूएसु वेरं मज्झं न केणइ ॥४॥

[पंचप्रति० वंदित्तु सू० गा० ४६]

(३१४)

अं जं मणेण वद्धं जं जं वायाए भासिअं पावं ।
जं जं काएण कयं मिच्छा मि दुक्कडं तस्स ॥५॥

[पंचप्रति० संखारासु० अंतिम गाथा]

क्षमापन-सूत्र

(३१०)

धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ ।

(३११)

मैं नतमस्तक होकर भगवत् श्रमणसंघ के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनको भी मैं क्षमा करता हूँ ।

(३१२)

आचार्य, उपाध्याय, शिष्यगण और साधर्मी बन्धुओं तथा कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादियुक्त व्यवहार किया हो उसके लिये मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ ।

(३१३)

मैं समस्त जीवों से क्षमा माँगता हूँ और सब जीव मुझे भी क्षमा-दान दें । सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्रीवृत्ति है; किसी के भी साथ मेरा वैर नहीं है ।

(३१४)

मैंने जो जो पाप मन से—संकल्पित—किये हैं, वाणी से बोले हैं और शरीर से किये हैं, वे मेरे सब पाप मिथ्या हो जायँ ।

पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ

अकाम—अविवेक—अज्ञान-पूर्वक दुःखसुख आदि सहन करनेकी प्रवृत्ति या इच्छा न होने पर भी परवशतः सहन करनेकी प्रवृत्ति ।

अगृह्य—अलोलुप ।

अचित्त—सचित्तसे उलटा—निर्जीव ।

अनगार—अन्+अगार, अगार=घर, जिसका अमुक एक घर नहीं है अर्थात् निरंतर सविधि भ्रमण-शील साधक, साधु । साधु, संन्यासी, भिक्षु, श्रमण ये सब 'अनगार'के समनार्थ है ।

अनुत्तर—उत्तमोत्तम ।

अवधि—रूपादियुक्त परोक्ष या अपरोक्ष पदार्थको मर्यादित रीतिसे जान सकनेवाला विविध प्रकारका ज्ञान ।

आदाननिक्षेप—किसीको किसी भी प्रकारका क्लेश न हो इस तरहका संकल्प धारण कर कोई भी पदार्थको धरना या उठाना ।

आस्रव—आसक्ति युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ।

आहार—अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम, यह चार

प्रकारका भोजन, अशन—कोई भी खाद्य पदार्थका भोजन, पान—कोई भी पेय पदार्थका पीना-शरबत जल दूध आदि पीनेकी चीजोंको पीना, खादिम—फल, मेवा आदि, स्वादिम—मुखवास, लवंग, सुपारी आदि ।

इंगित—शारीरिक संकेत—नेत्र, हाथ, आदिके इशारे ।

ईर्या—गमन—आगमन आदि क्रिया, ईर्या-समिति—किसीको किसी भी प्रकारका क्लेश न हो ऐसे संकल्पसे सावधानी पूर्वक चलना-फिरना आदि सब क्रियाओंका करना ।

उच्चार-समिति—शौचक्रिया या लघुशंका अर्थात् किसी भी प्रकारका शारीरिक मल, मलका मानी उच्चार, मलको ऐसे स्थानमें छोडना जहाँ किसीको लेश भी कष्ट न हो और जहाँ कोई भी आता-जाता न हो और देख भी न सके इसका नाम उच्चार-समिति है ।

उब्भेइमलोण—उद्भेदिम—लवण—समुद्रके पानीसे बना हुआ सहज नमक ।

उन्नोदरी—भूखसे कुछ कम खाना—उदरको ऊन रखना—पूरा न भरना ।

एषणा—निर्दोष वस्त्र, पात्र और खानपानकी शोध करना, निर्दोषका मानी हिंसा, असत्य आदि दोषोंसे रहित ।

एषणीय—शोधनीय—खोज करने लायक—जिनकी उत्पत्ति दूषित है या नहीं इस प्रकार गवेषणाके योग्य ।

औपपातिक—उपपात अर्थात् स्वर्गमें या नरकमें जन्म होना ।
औपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी ।

कषाय—आत्माके शुद्ध स्वरूपको कष—नाश—करनेवाला,
क्रोध, मान माया और लोभ ये चार महादोष ।

किंपाकफल—जो फल देखनेमें और स्वादमें सुन्दर होता है पर खानेसे प्राणका नाश करता है ।

केवली—केवलज्ञान वाला—सतत शुद्ध आत्म-निष्ठ ।

गुप्ति—गोपन करना—संरक्षण करना; मन, वचन और शरीरको दुष्ट कार्योंसे बचा लेना ।

तिर्यञ्च—देव, नरक और मनुष्यको छोड़कर शेष जीवोंका नाम 'तिर्यञ्च' है ।

त्रस—धूपसे त्रास पाकर छँहका और शीतसे त्रास पाकर धूपका आश्रय लेने वाला प्राणी—त्रस ।

दर्शनावरणीय—दर्शन-शक्तिके आवरणरूप कर्म ।

नायपुत्त—भगवान महावीरके वंशका नाम 'नाय'-ज्ञात-है

अतः नाययुक्त-ज्ञातपुत्र-भगवान महावीरका खास नाम है ।

निकाय—समूह, जीवनिकाय—जीवोंका समूह ।

निर्ग्रन्थ—गाँठ देकर रखने लायक कोई चीज़ जिनके पास नहीं है—अपरिग्रही साधु ।

निर्जरा—कर्मोंको नाश करनेकी प्रवृत्ति—अनासक्त चित्तसे प्रवृत्ति करनेसे आत्माके सब कर्म नाश हो जाते हैं ।

परीषह—जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न आते हैं उनके लिए 'परीषह' शब्द प्रयुक्त होता है । साधकको उन सब विघ्नोंको सहन करना चाहिए इसलिए उनका नाम 'परीषह' हुआ ।

पुद्गल—रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दवाले जड़ पदार्थ या जड़ पदार्थके विविध रूप ।

प्रमाद—विषय कषाय मद्य अतिनिद्रा और विकथा आदिका प्रसंग—पांच इन्द्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पांच विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कषाय, मद्य—मद्य और ऐसी ही अन्य मादक चीजें, अतिनिद्रा—घोर निद्रा, विकथा—संयमको घात करने

वाली विविध प्रकारकी कुत्सित कथाएँ ।

मति— इंद्रिय-जन्य ज्ञान ।

मनःपर्याय—दूसरोके मनके भावोंको ठीक पहचाननेवाला ज्ञान ।

महाव्रत—अहिंसाका पालन, सत्यका भाषण, अचौर्यवृत्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत हैं ।

मोहनीय—मोहको उत्पन्न करनेवाले संस्काररूप कर्म—
मोहनीय कर्मके ही प्राबल्यसे आत्मा अपना स्वरूप नहीं पहचानता ।

रजोहरण—रजको हरनेवाला साधन—जो आजकल पतली ऊनकी डोरियोंसे बनाया जाता है—जैन साधु निरंतर पास रखते हैं—जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे झाड़कर बैठते हैं । जिसका दूसरा नाम 'ओघा'—'चरवला' है ।

लेश्या—आत्माके परिणाम—अध्यवसाय ।

बिडलोण—गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक ।

वेदनीय—शरीरसे वा इंद्रियोंसे जिनका अनुभव होता है ऐसे सुख या दुःखके साधनरूप कर्म ।

वैयावृत्य—बाल, वृद्ध, रोगी आदि अपने समान धर्मियोंकी सेवा ।

शैलेशी—शिलेश-हिमालय, हिमालयके समान अकंप स्थिति ।

श्रद्धान—श्रद्धा—स्थितप्रज्ञ वीतराग आप्तपुरुषमें दृढ विश्वास ।

श्रमण—स्वपरके कल्याणके लिए श्रम करनेवाला । यह शब्द
जैन और बौद्ध साधुओंके लिए व्यवहारमें प्रचलित है ।

श्रुत—सुना हुआ ज्ञान—शास्त्रज्ञान ।

सकाम—विवेक—ज्ञान—पूर्वक दुःख सुखादि सहन करनेकी
प्रवृत्ति या स्वतंत्रविचारसे सहन करनेकी प्रवृत्ति । देखो
अकाम ।

सचित्त—चित्तयुक्त—प्राणयुक्त—जीवसहित कोई भी पदार्थ ।

समिति—शारीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता ।

संवर—आश्रवोंको रोकना, अनासक्त आत्माकी प्रवृत्ति—
आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति ।

सँल्लेखना—मृत्यु (शरीरान्त) तक चलनेवाली वह प्रवृत्ति
जिससे कषायोंको दूर करनेके लिए उनका पोषण और
निर्वाह करनेवाले तमाम निमित्त क्रम किए जाते हों ।

ज्ञानावरणीय—ज्ञानके आवरणरूप कर्म—ज्ञान, ज्ञानी या
ज्ञानके साधनके प्रति द्वेषादि दुर्भाव रखनेसे ज्ञानावरणीय
कर्म बंधते हैं ।

महावीर-वाणीके पद्योंकी अक्षरानुक्रमणिका

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
अच्चेइ कालो	१६०	अभिकखणं	८१
अज्झत्थं सव्वओ	१६	अभिभूय	२७४
अट्ट पवयण-	२४१	अरई गण्डं	१२३
अणसण-	२३६	अलोल भिक्खू	२७७
अणाइकाल-	१४१	अलोलुए अक्कुहए	२५१
अत्थंगयम्मि	६४	अलोलुयं	२६३
अदंसणं चेव	४३	अवण्णवायं	२५०
अधुवं जीवियं	१६१	अवि पावपरि-	८२
अन्नायउंछं	२४६	असासए सरीरम्मि	१७३
अप्पणट्ठा	२२	असंखयं जीविय	९९
अप्पा कत्ता	२१२	अह अट्ठहिं	७३
अप्पा चेव	२१३	अह पन्नरसहिं	७६
अप्पाणमेव	२१६	अह पंचहिं	७२
अप्पा नई	२११	अहीणपंचेन्दियत्तं	११९
अप्पा खलु	२२०	अहे वयंति	१४८
अप्पं च अहि-	७७	अहिंस सच्चं च	२
अबंभचरियं	३९	अंगपच्चंगसंठाणं	४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
आणाऽनिदेसकरे	८०	एमेव रूवम्मि	१३७
आणानिदेसकरे	७५	एयाइं मयाइं	३०९
आयरिए उवज्जाए	३१२	एयाओ पंच	२४३
आयारमट्ठा	२४५	एवमावट्टजोणीसु	८९
आहच्च	९३	एविन्दियत्था य	१३९
आहारमिच्छे	२०७	एवं खु नाणिणो	१८
इइ इत्तरियम्मि	११४	एवं गुणसमाउत्ता	२६८
इमं सरिरं	१६७	एवं च दोसं	६७
इरियाभासेसणा--	२४२	एवं धम्मस्स	७१
इह जीवियं	१९२	एवं धम्मं	६
उड्डं अहे य	३५	एवं भवसंसारे	११६
उदउल्लं बीय--	६६	एस धम्मे धुवे	५७
उवउज्जिय मित्त--	१२६	एसा पवयण--	२४४
उवलेवो होइ	१५७	कम्मसंगेहिं	९०
उवसमेण हणे	१४५	कम्माणं तु	९१
उवहिम्मि	२७६	कम्मुणा	२६७
एगया खत्तियो	८८	कलहडमर--	७९
एगामेगे खलु	३०३	कसिणं पि	१४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
कहं चरे ?	२८२	चत्तारि परम--	८७
कामाणुगिद्धि-	५५	चत्तारि वमे	२७०
कायसा	१८४	चरे पयाइं	१०५
किण्हा नीला	२३८, २३९	चिच्चा दुपयं	१७०
कुसगो	११३	चिच्चाणं धणं	१२५
कूइयं रुइयं	४७	चित्तमंतमचित्तं	३३, २६०
कोहा वा जइ वा	२५९	चीराजिणं	१५८
कोहो पीइं	१४४	छन्दंनिरोहेण	१०६
कोहो य माणो य	१४२	जगनिस्सिएहिं	१४
कोहं च माणं च	१५१	जणेण सद्धिं	१८१
कोहं माणं च	१४३	जम्मं दुक्खं	१६६
खणमेत्तसोक्खा	१५४	जमिणं जगई	१७२
खामेमि सव्वे	३१३	जया कम्मं	३००
खिप्पं न सक्केइ	१०८	जया गइं बहुविहं	२९०
गइलक्खणो	२२४	जया चयइ	२९३
मुणेहि साहू	२५२	जया जीव--	२८९
चउरंगं	९८	जया धुणइ	२९६
चउव्विहे वि	६८	जया निर्विदए	२९२

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
जया पुण्णं च	२९१	जहा य किंपाग-	१५६
जया मुंडे	२९४	जहा लाहो	१४७
जया चयइ	२९३	जहा सागडियो	५
जया य चयइ	१८७	जहिता पुव्व-	२६४
जया लोग-	२९८	जहेह सीहो	१७१
जया लोगे	२९९	जाइं च वुडिंढ	२०९
जया सव्वत्तगं	२९७	जा जा वच्चइ	७, ८
जया संवर-	२९५	जायरूवं	२५६
जयं चरे	२८३	जावन्तऽविजा	१९३
जरा जाव	९	जावन्ति लोए	१२
जरा-मरण-	४	जीवा-ऽजीवा य	२२८
जस्संतिए	८४	जीवियं चैव	१७५
जस्सेवमप्पा	२१९	जे आवि अप्पं	३०५
जहा किंपाग-	१५५	जे केइ पव्व-	१८९
जहा कुम्मे	२०३	जे केइ बाला	१८६
जहा दवग्गी	५१	जे केइ सरीरे	१५९
जहा पोम्मं	२६२	जे गिद्धे	१७९
जहा य अंड-	१३१	जे पाव-	१००

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
जे ममाइअमई	२०२	तवोगुण-	३०२
जे माहणे	३०४	तसपाणे	२५८
जे य कंते	१९९	तस्सेस मग्गो	२०६
जे संख्या	१११	तहियाणं तु	२२९
जो जीवे	२८७, २८८	तहेव काणं	३०
जो न सज्जइ	२५५	तहेव डहरं	२५३
जो पव्वइत्ताण	२२२	तहेव फरुसा	३२
जो सहइ	२७३	तहेव सावज्ज-	२५
जो सहस्सं	२०४, २१५	तिण्णो सि	१२८
जं जं मणेण	३१४	तिव्वं तसे	३६
जं पि वत्थं च	६१	तुलियाग	१९७
डहरे य पाणे	२०१	तेउ-पम्हा-	२४०
णिक्किचणे	३०७	तेणे जहा	१०२
तओ पुट्ठो	१८५	तेसिं गुरूणं	२५४
तओ से	१८२	तं अप्पणा	३४
तत्थ पच्चविहं	२३२	तं देहवासं	२८१
तत्थिमं	११	थंभा व कोहा	८५
तवस्सियं	२५७	दंतसोहण-	३७

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
दाराणि सुया	१६८	न जाइमत्ते	२७९
दिट्ठं मियं	२६	न तस्स जाई	३०६
दिव्व-माणस-	२६१	न तस्स दुक्खं	१७६
दुक्खं हयं	१३३	न तं अरी	२१८
दुज्जए	५४	न परं वइज्जासि	२७८
दुप्परिचया	१६४	न य पावपरिक्खेवी	७८
दुमपत्तए	११२	न य वुग्गहियं	२७२
दुल्लहे खलु	११५	न रूवलावण्ण-	४२
देव-दाणव-	५६	न लवेज्ज	२४
धण-धन्न-	५९	न वा लभेज्जा	२०८
धम्मलद्धं	५०	न वि मुंडिण्ण	२६५
धम्मो अहम्मो	२२३	न सो परिग्गहो	५८
धम्मो मङ्गल-	१	नाणस्स सव्वस्स	२०५
धम्मं पि हु	१२१	नाणस्सावरणिज्जं	२३३
धीरस्स पस्स	१९६	नाणेणं जाणइ	२३०
न कम्मुणा	२१०	नाणं च दंसणं	२२६, २३१
न कामभोगा	१४०	नामकम्मं	२३४
न चित्ता	१७७	नासीले	७४

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
निच्चकाल--	२१	बुद्धस्स निसम्म	१२९
निच्चुव्विगो	१८८	भासाए दोसे य	२७
पइण्णवादी	८३	भोगामिसदोस--	१७८
पढमं नाणं	२८५	मणपल्हायजणणी	४४
पन्नामयं	३०८	मन्दा य फासा	११०
पणीयं भत्त--	४९	मरिहिसि रायं !	१०
पमायं कम्म--	१३०	माणुसत्तम्मि	९५
परिजूरइ	१२२	माणुसत्ते	१७४
पवेयए अज्जपयं	२८०	माणुस्सं विग्गहं	९२
पाणिवह-मुसावाया--	६९	मासे मासे	१९१
पाणे य नाइ--	३	मुसावाओ य	२३
पायच्छित्तं	२३७	मुहुं मुहुं मोह--	१०९
पुढवी साली	१५०	मूलमेयमहम्मस्स	४०
पुरिसोरम	१६२	मूलाओ खंघप्प--	७०
पंचिंदिय--	२१७	रसा पगामं न	१३४
बालस्स पस्स	१९५	रागो य दोसो	१३२
बालाणं अकामं	१९४	रूवाणुरत्तस्स	१३६
विडमुग्गेइमं	६०	रूवे विरत्तो	१३८

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
रूवेसु जो	१३५	वोच्छिन्द	१२४
रोइभनायपुत्त-	२६९	सक्का सहेउं	२४८
लद्धूण वि ११७,	११८,	सद्दे रूवे य	५३
	१२०	सद्धंधयार-	२२७
लोहस्सेस	६३	सन्तिमे	६५
वत्तणालक्खणो	२२५	स पुव्वमेवं	१०७
वत्थगन्ध-	२००	समयाए	२६६
वरं मे	२१४	समया सव्व-	२०
विग्गिच	९७	सम्मदिट्ठी	२७१
वितहं पि	३१	समावयंता	२४९
वित्तेण ताणं	१०१	समिक्ख	१९८
वित्तं पसवो	१६५	समं च	४५
विभूसा इत्थिसं-	४१	सयं तिवायए	१३
विभूसं	५२	सयं समेच्च	२८
विरई अबंभ--	३८	सरीरमाहु	२२१
विवत्ती अविणी-	८६	सल्लं कामा	१५२
वेया अहीया न	१६९	सवक्कसुद्धिं	२९
वेराइं कुव्वइ	१९०	सव्वत्थुवहिणा	६२

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
संभवभूयप्पभूयस्स	२८४	सोच्चा जाणइ	२८६
संभवस्स जीव—	३१०	सो तवो	२३५
संभवस्स समण—	३११	सोही उज्जुय--	९६
संव्वाहिं अणुजु--	१७	संथारसेज्जा--	२४७
संवे जीवा	१५	संबुज्झमाणे	१९
संवं विलवियं	१५३	संबुज्झह किं न	१६३
सुइं च लद्धुं	९४	संसारमावन्न	१०३
सुत्तेसु	१०४	हत्थसंजए	२७५
सुवण्णरुप्पस्स	१४९	हत्थागया	१८०
सुहसायगंस्स	३०१	हासं किड्डं	४८
		हिंसे बाले	१८३

*

शुद्धिपत्रक

- १ मूल गाथामें और हिन्दी अनुवादमें कई जगह टाइप बराबर ऊठे नहीं है तथा संख्याके अंक भी बराबर स्पष्ट छपे नहीं है तथा अनुस्वार, अक्षरके ऊपरकी मात्राएं—दीर्घकी मात्रा, एकारकी मात्रा वगैरे मात्राएं—स्पष्टतया उठी नही हैं।
- २ व और ब में भी छपनेमें संकरसा हो गया है।
- ३ कई जगह टाइपके बाजुमें और ऊपरमें कुछ धब्बासा भी छप गया है।
- ४ अक्षरके ऊपरके अनुस्वार कई जगह यथास्थान नहीं छपे परंतु खिसकर छपे हैं।
- ५ ० ऐसा शून्य भी स्पष्ट छपा नहीं है।

इस प्रकार मुद्रणकी भारी त्रुटिसे वाचकलोग गभराये नहीं परंतु उस तरफ उपेक्षाभाव रखकर ग्रंथको पढ़ें ऐसी मेरी नम्र सूचना हैं।

अशुद्ध

शुद्ध

चतुरंगी	चतुरंगीय	(विषयसूची)
जातिमदनिवारण	जातिमदनिवारणसूत्र	”
अर्हन्तकी	अर्हन्तोंकी	(मंगलसूत्र-शरण)
धम-सूत्र	धर्मसूत्र	पृ० ११
सब्बं दिस्स,	सब्बं, दिस्स	गा० १६
भयवेराओ	भय-वेराओ	”
सम्यक्ज्ञान	सम्यग्ज्ञान	गा० १७ (अनुवाद)
सबी	सभी	” (”)
एवं	एयं	गा० १८
दुक्करं	दुक्करं	गा० २१
मर्म	मर्म-	गा० २४ (अनुवाद)
वि	पि	गा० ३१
स्त्रियोका	स्त्रियोका	गा० ४१ (अनुवाद)
स्वादिष्ट	स्वादिष्ट	गा० ४१ (”)
पाणिहाणवं	पाणिहाणवं	गा० ५४
श्रृंगार	शृंगार	गा० ५२
श्रृंगारी	शृंगारी	”
बंभयारि	बंभयारिं	गा० ५६
आशक्ति का	आसक्ति का	गा० ५८
सर्पिं	सर्पिं	गा० ६०
एयं	एवं	गा० ६७

अशुद्ध	शुद्ध	
अरात्रि-भोजन-	अरात्रिभोजन-	गा० ६४ (शीर्षक- अनुवाद)
छाते !	छाते	गा० ९४ (अनुवाद)
पमत्त	पमत्ते	गा० १०१
पंचिन्दिया	पंचिन्दियया	गा० ११८
विइयं	बिइयं	गा० १२६
स्वादिष्ट	स्वादिष्ठ	गा० १३४ (अनुवाद)
लोहा	लोहो	गा० १४७
परित्याग	परित्याग	गा० १५१ (अनुवाद)
विणिअट्टेज्ज	विणिअट्टेज्ज	गा० १६१
पुणरावि	पुणरावि	गा० १६३
सुवया	सुव्वया	गा० १६४
राजन्,	राजन् !	गा० १७५ (अनुवाद)
पंडितमन्य	पंडितंमन्य	गा० १७७ (,,)
है	है'	गा० १७९ (,,)
भयभ्रान्त	भयभ्रान्त	गा० १८८ (अनुवाद)
चिच्च	चिच्चा	गा० १९६
उच्छंखल	उच्छंखल	गा० १९२ (अनुवाद)
पंडिए	पंडिए	गा० १९८
हू	हु	गा० १९९

मशुद्ध	शुद्ध	
मुत्तत्थ	सुत्तत्थ	गा० २०६
सम	समं	गा० २०८
तत्त्वज्ञानी	तत्त्वज्ञानी	गा० २०७ (अनुवाद)
वेयवणी	वेयरणी	गा० २११
कामदुघा	कामदुघा	गा० २११ (अनुवाद)
अप्पाणमेव	अप्पणामेव	गा० २१६
कोहे	कोहं	गा० २१७
लक्खणो	लक्खणो	गा० २२४
चरितं	चरितं	गा० २२६
जावस्स	जीवस्स	”
नाण	नाणं	गा० २३१
ज्ञानवरणीय	ज्ञानावरणीय	गा० २३३, २३४ (अनुवाद)
अशातना	आशातना	गा० २४५ (,,)
माहण	माहणं	गा० २५७
जइ हासा	जइ वा हासा	गा० २५९
वक्केणं	वक्केणं	गा० २६१
अकिचन	अकिंचन	गा० २६३ (अनुवाद)
रोइअ नायपुत्त	रोइअनायपुत्त	गा० २६९
पुराण पावगं	पुराणपावगं	गा० २७१
मन्ते	मन्ते	गा० २७९

अशुद्ध	शुद्ध	
छेयपवागं	छेयपावगं	गा० २८५
बंध	बंधं	गा० २९०
तत्त्व	तत्त्व	गा० २८७ (अनुवाद)
अजीवको भी घह	अजीवको भी जाबता है वह	गा० २८८ (अनुवाद)
सब्भिन्तरं बाहिरं	सब्भिन्तरबाहिरं	गा० २९२, २९३
पुण्ण	पुण्णं	गा० २९१
धम्म	धम्मं	गा० २९४
धुण्ण	धुण्णं	गा० २९६
कम्म	कम्मं	गा० २९९
नीच्च	नीच्चे	नं० ३०३
(सांचा)	(चंचा)	गा० ३०५
१७८	१६८ (पृष्ठांक)	
शब्दोंका	शब्दोंके	पृ० १७३

मोह दुःख काल घोर धारण क्षति मोहनीय रत
 वियाणइ श्रमणोचित मोक्षमार्ग होनेमें दुःख जीतने
 वाला सुखी वीर भोक्ता सया होता है लोहो रूप जात
 है दुःखी स्वाधीन भविष्य लोक वत्तिणो मुणी लोए
 और परतंत्रता शरीर तपस्वी तच्च ऐसे अनेकानेक शब्द
 अस्पष्ट छपे है अतः सावधान होकर पढ़नेकी नम्र सूचना है।

भारत जैन महामण्डल वर्धा के लोकप्रिय प्रकाशन

प्यारे राजा बेटा (भाग १ और २)	रिषभदास रांका	॥८)
जीवन जौहरी (स्व. जमनालालजी बजाज)	रिषभदास रांका	११)
गीता प्रवचनों	आचार्य विनोबा	१११)
धर्म और संस्कृति	जमनालाल जैन	११)
समाज और जीवन	जमनालाल जैन	१)
बुद्ध और महावीर तथा दो भाषण	कि. घ. मशरुवाला	१)
उज्ज्वल प्रवचन	उज्ज्वल कुमारीजी	॥८)
मणिभद्र (उपन्यास)	उदयलाल काशलीवाला	११)
महावीर वाणी (जैन गीता)	पं० बेचरदासजी	२१)
जो सन्तोंने कहा	(स्टॉक में नहीं)	
सर्वोदय यात्रा	आचार्य विनोबा	११)
तत्त्व समुच्चय	डॉ० हीरालाल जैन	२११)
तत्त्वार्थ सूत्र	पं० सुखलालजी	५११)
महावीर का जीवन-दर्शन	रिषभदास रांका	१८)
आदर्श विवाह-विधि	रिषभदास रांका	१८)
	जमनालाल जैन	
मारने की हिम्मत (कहानी संग्रह)	म० भगवानदीन	१)
सलौना सच (भाग १) बालकोपयोगी)	म० भगवानदीन	११) १८)
मेरे साथी (संस्मरण और जीवन-चित्र)	म० भगवानदीन	१)
महावीर और उनका साधना-मार्ग	रिषभदास रांका	१)
महावीर वर्धमान	डॉ० जगदीशचन्द्र जैन	१११)
धानकी खेतीकी नई पद्धति	रिषभदास रांका	१)
सम्पत्तिदान-यज्ञ	श्रीकृष्णदास जाजू	८)
चिनगारियां	ताराचंद कोठारी	१८)